



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19—मार्च 25, 2005 (फाल्गुन 28, 1926)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19—MARCH 25, 2005 (PHALGUNA 28, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued  
by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400005, दिनांक 1 मार्च 2005

सं. वैपविधि. सं. आइबीएन. 1186/23.13.018/2004-05--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाये।

"कुमिछेनो भित्तुई बैंकिंग कारपोरेशन"

उषा धीरात  
कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 2 मार्च 2005

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, जनवरी 2005 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

## सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	वकायों का तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
भायखला (मुंबई) संकल 10% रोहत पत्र 1995					
बी.सी. 17181 (जी.पी.एच.)	रु. 2,25,000/-	अद्विती सुधीर धरत मीता सुधीर धरत सुधीर बाय धरत	22/12/1998	अद्विती सुधीर धरत मीता सुधीर धरत सुधीर बाय धरत	06.25.88 13.3.2004
कौलकाता संकल 3 1/2% नेशनल प्लान बाण्ड - 1965					
सीए.002391	रु. 10,000/-	श्री सुरेश चन्द्र मुखाजीजी	31.12.1964 तक काय भुगतान दिया गया (उन्नीसतम)	स्वपनेश मुखाजीजी	फाईल सं. आई. 2560 महाप्रबंधक का दिनांक 27.1.2005 को आदेश एल.सी.ओ. सं. 121/04.05 दिनांक 03.02.2005
सीए.002392	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002393	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002394	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002395	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002396	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002397	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002398	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002399	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए.002400	रु. 10,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

जे. एम्. बाबा  
सहायक प्रबंधक  
मार्च 2, 2005

पत्र संख्या सीओ.डीटी.14.02.000/एच-7637/2004-05 दि. 28 फरवरी 2005 का अनुबंध  
13 से 19 नवम्बर 2004 की अवधि के लिए राजपत्र संख्या 46 के हिन्दी भाष्य के संबंध में शुद्धिपत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	राजपत्र में छपे गए अनुसार	निम्नानुसार शुद्ध करें
1.	4	जून 2004	अगस्त 2004
2.	8	यशवंत एम. शाह	यशवंत एन. शाह
2.	12	बी. एम. सकसेना	वी. एम. सकसेना

जे. एम्. बाबा  
सहायक प्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2005  
शुद्धि पत्र

सं. एन=11/13/2/2005=चौ. एवं वि.=भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4 दिनांक अक्टूबर 23, 2004 के पृष्ठ संख्या 6187 पर प्रकाशित विनियम प्रवच-5 के अन्त में प्रकाशित शब्दों:-

"31 मार्च को समाप्त अंशदान अवधि के लिए देय तारीख 12 मई"

के पश्चात्

"30 सितम्बर को समाप्त अंशदान अवधि के लिए देय तारीख 11 नवम्बर"

जोड़ा जाए।

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (चौ. एवं वि.)

=====

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2005

सं. एन=15/13/16/1/2004=चौ. एवं वि.=कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ चरित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रवक्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 15 फरवरी, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निर्दिष्ट की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) विनियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

"जिला कानीवत में राजस्व ग्राम--जहारी।"

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (चौ. एवं वि.)

=====

सं. एन=15/13/16/2/2004=चौ. एवं वि.=कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ चरित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रवक्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 मार्च, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निर्दिष्ट की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) विनियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

"जिला कानीवत में राजस्व ग्राम--महसना।"

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (चौ. एवं वि.)

=====

सं. एन=15/13/16/2/98=चौ. एवं वि.=कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ चरित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रवक्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 15 फरवरी, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निर्दिष्ट की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) विनियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हवस्त संख्या	जिला
1	2	3	4
1.	खैरकी दोला	161	गुड़गाँव
2.	सीही	108	गुड़गाँव
3.	सिकन्दरपुर	109	गुड़गाँव
4.	सिखोपुर (रामपुर सहित)	160	गुड़गाँव
5.	नवरंगपुर	157	गुड़गाँव
6.	जानेसर	154	गुड़गाँव

1	2	3	4
7.	नाहरपुर कासन	111	गुड़गाँव
8.	फतेहपुर नवादा	112	गुड़गाँव
9.	बिनीला	147	गुड़गाँव
10.	नखरीला	110	गुड़गाँव
11.	कासन	129	गुड़गाँव

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (चौ. एवं वि.)

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)**

नई दिल्ली-110066, दिनांक 18 जनवरी 2005

सं. क.भ.नि.आ. 1(4)10/05/डीएल/जीजे/एन.जेड--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें:-

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
1.	डीएल/28047	मै. रैरी स्कूल ऑफ एडवान्सड स्टीड	21.09.04 21.09.04
2.	डीएल/28126	मै. नार्दन इंडिया टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन	09.10.03 09.10.03
3.	डीएल/27833	मै. नेशनल सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग	18.08.03 18.08.03
4.	डीएल/24045	मै. इंडिया ब्रोडकास्टिंग फाउंडेशन	16.11.00 16.11.00
5.	डीएल/26138	मै. कॉमर्शियल ऑफिस चह धिले इन इंडिया	17.09.02 01.01.03
6.	डीएल/25085	मै. ह्यूमेन रिप्रोडक्शन रिसर्च सेंटर	02.08.04 02.08.04
7.	डीएल/26823	मै. पेस एक्सप्रेस ट्रेवल्स एण्ड कार्गो प्रा. लि.	20.02.03 20.02.03
8.	जीजे/50556	मै. विटठल उद्योगनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	12.4.04 12.04.04
9.	जीजे/50005	मै. शैशव ट्रस्ट	05.10.04 05.10.04
10.	जीजे/29846	मै. चानासमा कामर्शियल का-ओप.	27.02.03 27.02.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

डॉ. ए. के. चण्डोक  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

## दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

मुम्बई-400 005, दिनांक 8 फरवरी 2005

3इक्यूसीए(8)/1/2003-04 :- चार्टर्ड प्राप्ति लेखाकार विनियम 1988, के विनियम 10(1) खण्ड (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रमांक एम.आर. सदस्य का नाम एम. नं. व पता	दिनांक	क्रमांक एम.आर. सदस्य का नाम एम. नं. व पता	दिनांक
1 002949 श्री धिताले प्रभाकर पुरसोत्तम एफसीए 02.11.03 118/6 समाधन, रोड नं. 24ए स्वाइन (वेस्ट), मुम्बई-400 022		7 006005 श्री अक्षर आरदेशिर सस्टोम, एफसीए 05.11.03 रोस्ट और किचनेयर, लेबल 3 131 ब्लेरेस स्ट्रीट, सिडनी एम एन इक्यू., 2000 अस्ट्रेलिया	
2 003482 श्री मरघैट रामजनाली एफसीए 01.04.03 फकीर मोहम्मद, 15 ब्रिन्डाह क्रॉस लेन, टाप तल, मुम्बई-400 009		8 006404 श्री अचारी बाजी होमी एफसीए 18.12.03 मन्दावी मनसम तीसरा तल, ब्लॉक बी, 7 रॉटोन सिधवा मार्ग, गमबोब स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400 001	
3 003872 श्री कुलशात्री सुबाजी एफसीए 23.09.03 नरसिंह राव 18 इन्दिरा, नागला पार्क, कोल्हापुर-416 003		9 007760 श्री साह अजीतिश कुमार एफसीए 28.02.04 जैसिंहभाई श्री बंगलों, नियर यूके बैंक, टोलक नगर, पालडी अहमदाबाद 380 007	
4 004571 श्री वैसाई येजवी पेसोटन एफसीए 27.05.03 मिनो मिडर, 22 यूनियन पार्क, खार, मुम्बई-400 007		10 008203 श्री जयकाटा सस्ताम काई एफसीए 31.03.03 कुसरो विंडसर हाउस, फ्लैट नं. 12 (चीवा तल) 138, एम खरवी रोड, मुम्बई 400 20	
5 005019 श्री सरवचन्द्रा ठाकोरलाल एफसीए 01.04.03 पटेल 39 रतनाबाद, सुकराम जीबाजी रोड, ग्रैंट रोड वेस्ट मुम्बई		11 008287 श्री तन्मूबाला मेखान इन्दुलजी एफसीए 31.03.03 51 मेडर बाव, कफी परोड, कोलाबा, मुम्बई-400 005	
6 005167 श्री फोजदार धुपेन्द्र एफसीए 31.03.03 कुमार रनछोडास, डरी कृपा फ्लैट 27, 5वां तल, 28-ए, एन बी रोड, सन्टाक्रूज वेस्ट, मुम्बई-400 054		12 010023 श्री अन्नबाल सत्या प्रकाश एफसीए 03.02.04 सागर विला, 38 बारडन रोड मुम्बई 400 026	

क्रमांक	सम. आर.	सर्वस्य का नाम	विनोद	क्रमांक	सम. आर.	सर्वस्य का नाम	विनोद
सू. नं.	व. पत्ता			सू. नं.	व. पत्ता		
13	010168	श्री बालमुन्नमणिशम के. 57 वी/11, ब्रिजबाथ सोसाइटी, धाने, वेस्ट धाने 400601	एसीए 27.01.04	22	031135	श्री सोमानी सुरेन्द्र कुमार भाधमल बो 9/18, सेन्टरी स्टाफ क्वार्टर्स, पास टी वी सेंटर, मांडुरम बुधकर मार्ग वल्ली, मुंबई-10	एसीए 01.01.04
14	010532	श्री पटेल जयंतीबाबा मोहनलाल, जे एम्बेजे. 6 जयशिव सोसाइटी, एन एस रोड नं. 12ए, जे वी. पी. डी स्कीम, जुहू, मुंबई-400009	एफ सी ए 14.2003	23	031320	श्री कामत लक्ष्म कृष्णा 23/3 सत्रजिवन गोखले, गोखले रोड, क्रॉस रोड नं. 2, ठावर, मुंबई-400028	एसीए 12.08.03
15	011316	श्री प्रकाश नगरवास साह 32 भगवान भवन, 196 मामूल स्टीट, मुंबई-400009	एफ सी ए 20.10.03	24	031543	श्री मल्लुस्ते रघुनंदन वात्तारे 6ए आई एल पलाजी, जिल्डिल गिब्स रोड मुंबई-400006	एफ सी ए 01.04.03
16	011609	श्री कुमारस्वामी जी फ्लैट नं. 7, प्लाट नं. 304, नालनी, सिमीन, द्रोमी रोड, चैम्बर ए एस मुंबई-400071	एसीए 23.09.03	25	031788	श्री वल्लीम कुमार घोष पी 232/1863 कुरला कैमप जल्लास नगर-421005	एसीए 20.11.03
17	013222	श्री जोर्ज वैलासोथस मैथु 403 कम्यू डाइमंड रेजीडेंस, फतेहगंज बडोवरा-390002	एसीए 10.06.03	26	032326	श्री फाहिल रामाणी जगवीश इरी फ्लैट नं. 5, संदेश बिल्डिंग, 28वां रोड, नावरा वेस्ट, मुंबई-400050	एसीए 16.8.03
18	014208	सुरजी मोहन एस फ्लैट नं. 302, चैलीजर सावर 1 ठाकुर गांव, कंडीवली ईस्ट मुंबई-400001	एफ सी ए 01.04.03	27	032397	श्री सेठ रोहित हरकृष्ण वास 207 विरेश्वर चैम्बर, एस जी रोड विजे पारले इस्ट, मुंबई-400057	एफ सी ए 25.02.04
19	014384	श्री गांधी सुरेश 1102, मंचू अपार्टमेंट नारायण बहाबोजीकर रोड मुंबई-400006	ए फ सी ए 01.04.03	28	033097	श्री जीवराजकाकमल राधेश्याम, पीटीजे मे फाइलम, गेवांगन, द्रोमोल पी ओएस 33 सिडोजी इस्ट, जावा, घुरबासा 406006, इन्डोनेसिया	एफ सी ए 01.04.03
20	015206	श्री मोहन लाल एस शरमा, सुपिट नं. 218, बिल्ड राजस्थान बिल्डिंग, दुमरा तल, 95, वाता साहेब फांफे रोड, ठावर ईस्ट मुंबई-400014	एफ सी ए 31.03.03	29	033140	श्री पटेल हरसह नवीन भाई फ्लैट नं. 42, 4वां तल, बिल्डिंग नं. 12-ए, ब्रिन्हावन सोसायटी, धाने वेस्ट, धाने-400001	एफ सी ए 09.09.03
21	030864	श्री भतरी खोजइस समोन 703, इजी अपार्टमेंट, शांतिमय मार्ग, आर्क सिववास चैम्प, माजगांव रोड, माजगांव, मुंबई-400010	एसीए 01.04.03	30	033308	श्री मेहता सतीश गोराधन एमडी क्रेडिट इन्फोर्समेंशन (आई) लिमिटेड, होवेस्ट घर 6वां तल, 193, बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई-400021	एफ सी ए 31.03.03

क्रमांक	संख्या	सदस्य का नाम	दिनांक	क्रमांक	संख्या	सदस्य का नाम	दिनांक
सं. नं.	व. पता			सं. नं.	व. पता		
31.	033643	पटेल मधुक विनकर भाई प्रसन्ना हाउस, एसोसियेटेड सोसाइटी, राधा कुष्णा पार्क, निबर अकोटा स्टेडियम, बलोवरा-390 020	एफसीए 01.04.03	40.	035352	श्री हरीहरने सुंदर ए-3, 302, लोक सचन, पोखरन 2, घाने 400 601	एसीए 18.08.03
32.	034168	श्री प्रसन्न श्रीधर वैश्यान्ते प्राइसवॉटर हाउसकोपरस ट्रेड ब्लॉक, 8वां तल, सी विंग, कमलमिल्लकम्माउड, सेनापति वापट मार्ग, लोवर पारले, मुंबई	एसीए 11.11.03	41.	035724	श्री राजेन्द्रा कुमार मुधा 3/11/10 नवजीवन सोसाइटी, लेमीगटन रोड मुंबई 400 008	एफसीए 13.06.03
33.	034926	श्री सत्यारिया प्रकाश चन्ना एन एल 675 प्रथम तल, सेक्टर 15, नेहरू, नवी मुंबई-400706	एफसीए 31.03.03	42.	036443	श्री वासवावा नितिन कुमार हरविंद राय 82 वस्तु निर्माण प्लॉट नं. 636, सेक्टर 22 मांधी नगर मांधी नगर 380 022	एफसीए 01.04.03
34.	034978	श्री कोल्कर विनय नारायण 601 ए विंग, प्रेस्लीज पार्क, गणसबाडी, पंचपाखाडी, नितिन कस्टिंग के पीछे, घाने-400601	एसीए 15.09.03	43.	036734	श्री अग्रवाल राम हंसराज 'विपिन' रांव हाउस 4, फेस-5 पृथ्वी ब्रमांड को.ओ. हाउसिंग सोसायटी, आजाद नगर, घाने (वेस्ट), घाने 400 607	एसीए 02.09.03
35.	034988	श्री बालाल जेयेश नवनील लाल, 41 पोजन, जयहिंद सी एच एस, एनएस रोड नं. 11 बुद्ध स्कीम, विले पारले वेस्ट मुंबई-400049	एफसीए 18.12.03	44.	036922	श्री समसुब्रामनियन वैध्यानाथ 7 ओल्ड विमल विहार, बालजी लाडा रोड मुलंड (वेस्ट) मुंबई 400 008	एफसीए 01.11.03
36.	035221	श्री लक्ष्मी नारायण सी एच हाउसरोडर मोनयना एक्सपोर्ट प्रा. लि. 98 ओलजी मेकर पैम्बर नं. 2 नरीमान प्वाइंट, मुंबई-21	एसीए 25.02.04	45.	038058	श्री पालेकर शशि मोरेश्वर 28/108-त्रिन्वावन ऑफ महाकाली केवस रोड, अंधेरी, मुंबई-400093	एफसीए 17.11.03
37.	035226	श्री हेमल संजय कुष्णा 602 बुद्ध साईव नि.को.ओ. हाउसिंग सोसायटी, 10वी बिल्डिंग, जे बी पी सी स्कीम, मुंबई-49	एफसीए 06.06.03	46.	038134	श्री विठ्ठलानी पंकज रसिकलाल, 12-74, टेपस्कोट रोड, स्कोर बोरोफ औटेरियो, कनराडा एम 1 बी 5पी1 कनोडा-0, कनोडा	एफसीए 01.04.03
38.	035248	श्री शाह नरेश जयती लाल एनजे शाह एण्ड एसो. हीसकुज 29, 5वां तल, सैनी मुल्जी रोड, लारवेव, मुंबई 400 034	एफसीए 31.03.03	47.	038155	श्री शाह अरविंद कुमार रावजी 304 हिंद राजस्थान बिल्डिंग, 95 बाबा साहेब फालके रोड, बावर (सी आर) मुंबई 400 014	एफसीए 24.07.03
39.	035346	श्री भारो शशांक अरविंद एस ए भारो एण्ड कं. 2/59, साई सुभन, जे पी रोड निबर अपना बाजार, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई 400 053	एफसीए 01.04.03	48.	038249	श्री मिस्त्री मुकेश अमरतलाल एसीए सी 55 टोपीवाला बिल्डिंग, ओपोजिट टोपीवाल घेयेटर, गोरेगांव मुंबई 400 062	20.05.03

क्रमांक	एन.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एन.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
49.	038278	श्री सराफ बिजय कुमार हरी प्रसाद 902 फलकोन रोड, न्यू लिंक रोड, बोरववाली (वेस्ट), मुंबई-400 091	एफसीए 19.01.04	58.	039672	श्री भाटिया समीर विजय 202 कोनेक्स हाउस, 91 स्वामी रोड, प्रभावेवी मुंबई-400 025	एफसीए 04.09.03
50.	038581	श्री इदीकम पेरसी डोमी एम 3/34-मेरीकनजी क्लबा पार्क, क्लबा रोड, अंधेरी वेस्ट मुंबई-400 058	एसीए 23.01.04	59.	039930	श्री वैहरागोतम धीहिन्दर कुमार, 15/3, सेतुरंजय, विन्नावन सोसाइटी, एन एस मनकीकार मार्ग, सिवोन मुंबई-400 022	एफसीए 01.09.03
51.	0386603	श्री सम्यह भारत लक्ष्मीबास 398 डी कलवावेवी रोड, 93, चौथा तल, छावी भंडार के ऊपर, मुंबई-400 002	एसीए 05.02.04	60.	039937	श्री शाह भाला महेन्द्रा हीरजी 12 विप्ती धाम, नाहुर विलेज रोड मुलंड (वेस्ट) मुंबई-400 080	एफसीए 31.07.03
52.	038730	श्री डोलकी जीम डब्ल्यूजा 1002 क्लब हाँवर, जकारिया मुम्बर क्रॉस रोड, सेवरी वेस्ट, बलभेर लारी कैवटरी के पीछे, मुंबई-15	एफसीए 23.05.03	61.	040104	श्री शाह जयेश कल्याण भाई यू जी 3 पुन्या भूमि सोपिंग सेंटर, वर्धन चार रास्ता, स्टे. एकवीधर स्कूल रोड अहमदाबाद 380 013	एफसीए 28.03.03
53.	039170	श्री डाना विलम मामू 403, विक्रम, 19/29, जानकी कुडीर, जुहु मुंबई-400 049	एफसीए 08.06.03	62.	040122	श्री सीमानी राजू जसनलाल 104 क्लीफ हाँवर तीसरा क्रॉस लेन, लोखंडवाला कम्पलेक्स, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई-400 053	एफसीए 16.07.03
54.	039221	श्री लखीमचंद कपुर चंद पारख आर नं. 17, दूसरा तल, 170/72 किफा स्ट्रीट मुंबई-400 004	एफसीए 15.10.03	63.	040165	कु. चवथा वीपक कथसे डी 602 तवाडे कम्पलेक्स लोकमान्या तिलक रोड, वहीसार (वेस्ट) मुंबई-400 068	एसीए 19.03.04
55.	039325	श्री शाह मयूर वसंत भाई 26/27, महावीर कृपा, दूसरा तल, बल्लभ भाग लेन एक्स, घडकोपर इस्ट, मुंबई-400 077	एफसीए 21.09.03	64.	040480	श्री गौरी मनोज अरिवंद 773/6ए, इश कृपा, शिवाजी नगर, निघर कमला नेहरू पार्क पुणे-411 004	एसीए 18.02.04
56.	039354	कु. निकोशिटी रिबेलो बिरेन्ना, जी-3, बी जे रोड बान्हा मुंबई-400 050	एसीए 29.07.03	65.	040767	श्री लोखरिया जयेश मुगतलाल, 405, जमुना अपार्टमेंट, ओपोजिट अम्बर ओल्कर सिनेमा, एस बी रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-58	एफसीए 31.12.03
57.	039605	श्री जतनिया घेतन यशवंत राय, सी बाई जतनिया एण्ड कं, बी 13 चन्द्रा किरण सोसाइटी, एस व्ही रोड, मल्हाड वेस्ट, मुंबई-400 064	एफसीए 01.04.03	66.	040841	श्री सुनील वसंत आराधे लेन नं. 3, 388, महात्मा सोसाइटी, कोठरुड, पुणे-411 029	एफसीए 28.8.03



क्रमांक	एम.आर. सदस्य का नाम	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. सदस्य का नाम	दिनांक
एन. नं.	व पता		एन. नं.	व पता	
67.	040850 श्री भाटिया विरेन्द्रा आत्माराम एफसीए पोस्ट बाक्स 43623 यू.ए.ई., दुबई-0 यू.ए.ई.	19.07.02	76.	042016 श्री पाई मंजुनाथ राधाकृष्णा एसीए 701, बिल्डिंग 21, गुलमोहर सोसायटी ओसीवारा, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई-400 070	28.07.03
68.	041062 कृ. सल्ला दिप्ती जयदीप एफसीए 13 लाबूरनम रोड सेठना हाउस तीसरा तल, गमदेवी, मुंबई 400 007	31.03.03	77.	042928 श्री वापना प्रकाश चन्द्र एसीए 563 व 565/565 शरज प्रसाद बिल्डिंग, न्यू मिल रोड, कुरला (वेस्ट) मुंबई 400 070	06.10.03
69.	041394 श्री वैधा नितिन मरटेन्ड एसीए 24/95, यशवंत नगर, एस वी रोड, गोरे गांव - डब्ल्यू मुंबई 400 062	02.09.03	78.	043002 श्री बोकिल राजेन्द्रा बलवंत एफसीए जी पी इलेक्ट्रॉनिक क. लि., बी 87 एडिसनल इंडस्ट्रीयल एरिया, एमबड, नासिक-422 010	31.03.03
70.	041538 श्री मारकंड श्रीधर धोंगे एफसीए प्लॉट नं. 13 दियो नगर, खामला रोड, नागपुर 400 015	07.01.04	79.	044138 श्री सुरभी संजय शंकर एफसीए 4 मारले वर सोसाइटी कोकन नगर, भानदूप, मुंबई 400 023	31.12.03
71.	041581 कृ. लोडारिया विन्टा जयेश एफसीए विनिता शेरराव एण्ड क. 405, जमुना अपार्टमेंट, पांचवां रोड, अंधेरी वेस्ट मुंबई 400 058	31.12.03	80.	044395 श्री गुप्ता राकेश शम्भू दयाल एफसीए 22 बाम्बे सामाचार मार्ग, दूसरा तल, फोर्ट मुंबई 400 023	18.07.03
72.	041667 श्री प्रमोद दाताराम रसम एफसीए श्री निवास चावल, जेबी नगर मुंबई 400 059	31.03.03	81.	044437 श्री खोना राजेश रेचंद एसीए सी 44/एन-8, अमर ज्योति को-ओ. हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 14, जुहु नगर, वाही, नावी, मुंबई-400 703	01.04.03
73.	041892 कृ. अल्पना विधाधर देशपांडे एसीए 10/42,, संगम, लोखनवाला कम्प्लेक्स मुंबई 400 102	24.03.04	82.	044733 श्री बंदोदारिया दिनेश एफसीए रमनिकलाल, 217 भावेश्वर आरकेड, एल बी एस मार्ग, घटकोपार -वेकस्ट मुंबई 400 086	23.02.04
74.	041893 श्री पराग अनन्त राय व्यास एफसीए 12 वेस्ट व्यू, राघवजी रोड गोवालिया टैंक मुंबई 400 036	03.12.03	83.	044761 श्री चौहान अतुलकुमार एसीए गोविंद भाई, सी/12 घनश्याम नगर-2, जी आई डी सी रोड, मनोयपुर, बडोदरा 390 011	17.03.04
75.	041954 श्री इंजीनियर बुरजिन एसीए ए एसपी आई आर-11, कसरॉव बाॅग, शहीद भगत सिंह रोड, इलेक्ट्रिक हाउस, कोलाबा, मुंबई 400 001	31.03.03	84.	044852 श्री संजय भंडारी, एसीए सी 51 पदम नगर, ओल्ड मोहन स्टूडियो, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई 400 069	06.10.03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
85.	045022	कु. सोनी जय ठक्कर, 18 सी/305 भोज महल (सी विंग), तीसरा तल, शिवपुरी कालोनी, एस टी रोड, धैम्बुर, मुंबई 400 071	एसीए 15.03.04	94.	046400	श्री टिकोटकर हरीशनारायण एसीए ए-5, सोधामिनी सोसाइटी 1 एस नं. 101/1, भूसारी कालोनी, पोड रोड, कोठरूड पुने 411 038	01.02.04
86.	045398	श्री राजदी परेशकुमार जमनादास, 306/बी, लक्ष्मी सोपिंग सेंटर, हीराचंद देसाई रोड, घटकोपार (वेस्ट) मुंबई-400 086	एफसीए 31.12.03	95.	046588	श्री रावल कमलेश जयंतीलाल एसीए 39, सरवोडे नगर-3, नियर के नगर, घटलोडिया अहमदाबाद 380 061	01.04.03
87.	045566	श्री भायानी राकेश किशोर 2 ए वैभव, ए विंग, दूसरा तल, 140 एस वी रोड, ओपोजिट इरला विले पारले-वेस्ट मुंबई 400 056	एफसीए 22.03.04	96.	047275	श्री सहाने मैथ्यु, ए-1/1202, विकास कम्पलेक्स केस्टल मिल कम्पाउंड, एल बी एस रोड, याने-400 601	एसीए 26.12.03
88.	045593	श्री राठोर कमलेश कुमार पोस्ट बॉक्स नं. 36, पोस्टल कोड 124, रूसायल-0 सल्लनेत ऑ ओमान	एफसीए 31.12.03	97.	047433	श्री प्रेसवाला जुंजर इस्माइल धाफार इन्सुरेंस क. सायोग पोस्ट बॉक्स 1002, पोस्टल कोड 112, रूबी, मुसकट-0 सल्लनेत ऑफ ओमान	एसीए 25.07.02
89.	045732	श्री डयूसूजा गिलबर्ट अल्बर्ट, 302 समीर, आई सी कालोनी रोड, आई सी कालोनी, बोरवली (वेस्ट) मुंबई 400 103	एसीए 01.12.03	98.	047689	श्री पध्या हेरेन बच्चूभाई 4 वैध्या बंगलो, ओपोजिट सांताबा पार्क, नाना बाजार, बल्लभ विधा नगर 388 120	एसीए 26.06.03
90.	045896	श्री झण्डाफ बेहराम रसीद टाटा मिल्स को.ओ. हाउसिंग सोसायटी लि., 3/28, 6वां तल, एलफीनस्टोन रोड, परेल, मुंबई 400 012	एफसीए 17.11.03	99.	047910	श्री प्रशांत नवनीतलाल शहा मजीधिया नगर, बिल्डिंग नं. 3, एफ विंग, तीसरा तल, एस वी रोड, कंडीवाली (वेस्ट) मुंबई-400 067	एसीए 23.03.04
91.	046086	श्री उत्तम सिंह विक्रम के पी एम जी हाउस कमला मिल कम्पाउंड, 448 सेनापति वापट मार्ग लोवर परेल, मुंबई 400 013	एसीए 30.10.03	100.	047961	श्री उमराजकर विनित गोविंद सी 23 मनाली आरकेड, पुने सतरा रोड ओपोजिट अश्वामेग आटो लि. पुने 411 009	एसीए 08.07.03
92.	046132	श्री जदिया हेमंत घनश्याम लाल रूम नं. 7, 227 एफ कालाबा देवी रोड, मुंबई 400 002	एसीए 19.12.03	101.	048076	श्री बुच चिराग सुरेश 2ए शत्रुंजन, लालूबाई पार्क अंधरे वेस्ट, मुंबई 400 058	एसीए 01.04.03
93.	046370	कु. पारेख वरसा जयंती लाल वास्त कोमल विल्ला 58 सुखमुल रोड बैंकॉक-10110 थाईलैंड	एफसीए 01.01.04	102.	048160	श्री चन्दाक सतीश रतनलाल 19 जेयेज लेआउट, भारत नगर, नागपुर 440 001	एसीए 08.07.03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
103	048433	श्री अनिल दामोदर प्रभु सी 56 गोकुल नगर सी एच एस लि. तीसरा तल, अम्बीका नगर, गोगराकवाडी, डोमविली (ई), थाने 421 201	एसीए 18.08.03	112	049024	श्री गज्जर आशीश कुमार नटवरलाल, 202 रूसकेश अपार्टमेंट, नियर स्नातक वासी जैन वाडी, कालोल 382 721	एसीए 01.04.03
104	048603	श्री सन्दीप बोले 7 ए नेहा अपार्टमेंट, आर सी दत्त रोड, अल्कापुरी बडोबरा 390 005	एसीए 24.05.03	113	049067	कु. पंथाकी टीना होमी 8 राज महल, 84 बीर नारीमन रोड मुंबई 400 020	एसीए 24.03.04
105	048626	श्री शंकर जी रामाकृष्णा 62 एगोपी कथना सोसायटी, ब्रिन्दाबन कम्पलेक्स, थाने (वेस्ट), थाने 400 601	एसीए 08.01.04	114	049107	श्री शाह कश्यप कुमार मफतलाल, 2 पटेल अपार्टमेंट चिंताभाई पटेल रोड, कांदीवली (ईस्ट) मुंबई 400 028	एसीए 01.04.03
106	048630	कु. मेहता तेजल सानाट बी 2/एफ 1, मिरीदुप पार्क फ्लैट, गुलवाई टेकरा, पोलीटेकनिक रोड, अहमदाबाद 380 015	एसीए 01.04.03	115	049279	श्री अपटे योगेश यशवंत 8/बी कडेल प्लाजा, वीर सावारकर मार्ग, दादर मुंबई 400 028	एफसीए 21.11.03
107	048847	कु. मुल्तानी नीता भगवानदास 32/बी नवयुव मनसन, स्लेटर रोड, मुंबई 400 007	एफसीए 22.12.03	116	049678	श्रीमती रूपा मिलिंद चित्रे 102 स्मरुत्री अपार्टमेंट बाजी प्रभु देशपांडे रोड विष्णु नगर, थाने वेस्ट थाने 400 602	एसीए 06.11.03
108	048892	कु. सदारनगनी प्रीतीलक्ष्मीचंद ए 1 जीवन जागृति, सी एच एस 57 डा अम्बेडकर रोड, पाली हिल्स, बंदरा (वेस्ट) मुंबई 400 050	एसीए 28.06.02	117	049809	श्री सचिन यशवंत मरदीकर बी 7 ब्रिन्दाबन अपार्टमेंट, भारत नगर, अमरावती रोड नागपुर 440 001	एफसीए 19.09.03
109	048951	श्री शाह जिनेश धनवंतभाई 29/122 बी बी ए खीमजी मार्ग, मांडुगा (सी. रेलवे) मुंबई 400 019	एसीए 29. 04.04	118	050351	श्री चक्रवर्ती हिरक सुभ्रा द टाईम्स ऑफ इंडिया फडिया चैम्बरस, आश्रम रोड अहमदाबाद 380 009	एफसीए 01.04.03
110	048967	श्री भीमानी केतन दिनेश कुमार बिल्डिंग नं. डी 22/001, सेक्टर 7, शांति नगर, मीरा रोड 401 107	एसीए 01.08.03	119	050628	श्री समीर कुमार शाह फ्लैट नं. 6503 ए मेरमेड 1 हाउसिंग सांसाइटी सेक्टर 11, सी बी डी बेलापुर नवी, मुंबई 400 614	एफसीए 05.03.04
111	048982	श्री देवेन्द्र रणधीर सिंह बी एम चतुरवेदी एण्ड कं. 32 जोली मेकर चैम्बर 2 नरीमान प्वाइंट, मुंबई 400 021	एफसीए 01.04.03	120	053663	श्री उपाध्याय जयकर फ्लैट नं. 11, गणेश पुजा पार्क 579 पौड रोड, कोतरुड पुणे 411 020	एसीए 26.09.03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
121.	053721	कृ. वसंती राम कुमार 6/304 नालनी, स्वाइन ट्रॉमवे रोड, चैम्बुर, मुंबई 400 071	एफसीए 31.03.03	130.	070695	श्री सिंघल आनंद कृष्णा 203 मैत्री रेसीडेंसी 1 नियर कमला विहार, महावीर नगर, कांदीवली (वेस्ट), मुंबई 400 067	एफसीए 01.04.03
122.	056684	श्री मनोज कुमार अग्रवाल जे 3 पुर्वांचल, क्लस्टर-2 साल्ट लेक सिटी कोलकत्ता-700 091	एफसीए 01.09.03	131.	071707	श्री श्रीवास्तवा विश्वानाथ डिप्टी जनरल मैनेजर-एकाउंट मैसर्स लारसन - टोब्रो लि. अवारपुर सीमेंट वर्क्स डिस्ट्रिक्ट चन्द्रापुर-442917	एफसीए 18.01.03
123.	057233	श्री दासगुप्ता प्रभुधदा सहारा हॉस्पिटालिटी लि. पूर्व सैन्दूर होटल मुंबई एयरपोर्ट मुंबई 400 099	एसीए 16.09.02	132.	072064	श्री अजया जैन ए/4 साई अराधना स्वागतम कम्पलेक्स, जेसल पार्क भायानदार ईस्ट भायानदार 401105	एफसीए 05.09.03
124.	058196	श्री कृष्णा कनोडिया वास्ते श्री रमेश भोटीका विश्वा महल, सी रोड, चर्च गेट मुंबई 400 020	एसीए 24.06.03	133.	073425	श्री भंडारी बलवीर राज ए 18/23, ब्राडवे एवेन्यू, शांति पार्क, मीरा रोड (ईस्ट) डिस्ट्रीक्ट थाने, मीरा रोड 401107	एसीए 31.12.03
125.	058445	श्री चटरजी देवजीत 8 राय साहेब डी एन मुखर्जी रोड, बाली, हावडा-711 201	एसीए 11.11.03	134.	073519	श्री कपिल कुमार ए 11, स्थापटया अपार्टमेंट, नियर स्टेरिंग हॉस्पिटल, अग्रसेन स्कूल रोड, गुरुकुल मेम नगर, अहमदाबाद-52	एफसीए 01.04.03
126.	059085	श्रीमती जेतिर्या मुखर्जी वास्ते श्री एस के दास, आर ए 69 कोलिन पाथ, पो.ओ. बिधान नगर, दुर्गापुर 713 212, वेस्ट बंगाल	एसीए 11.08.03	135.	073640	श्री कोचर महीपाल फ्लैट नं. 101, सत्यम सागर, दिलीप नगर, दमन 396210	एसीए 04.02.04
127.	059277	श्रीमती भूरा विनीता 102 गोयन पेलेस राजपथ हाईवे वास्तजेपुर, बोदाकदेव अहमदाबाद 380 054	एसीए 01.04.03	136.	074405	श्री जैन दिनेश ए 202 मुक्तनगन अपर गोविंद नगर, कैलाशपुरी मालड (ईस्ट) मुंबई 400 097	एफसीए 01.02.03
128.	059622	श्री मोहपात्रा संजीव कुमार पोस्ट बाक्स नं. 3244, किंगडाम ऑफ बैहरेन, बैहरेन-0, युएई	एसीए 05.03.01	137.	075515	श्री सरोफ राजेश आदानी विलमार लि., 10वां तल, शिकार, नियर मिथाखली सर्कल, नवरंगपुरा अहमदाबाद-380 009	एफसीए 01.04.03
129.	061202	श्री भक्त अमर नाथ सिमेंट कं. लि., यूनिट मैनेजमेंट ऑडिट डिवीजन, पो ओ दिगविजय ग्राम, गुजरात, जामनगर 361 140	एसीए 02.05.03	138.	076607	श्री सक्सेना हर्षा बिल्डिंग नं. 2, फ्लैट नं. 702, गार्डन स्टेट, श्रीमती ग्लेडीस अल्वारीस रोड, थाने वेस्ट थाने 400601	एसीए 30.08.03

क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	दिनांक	क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	दिनांक
	एन. नं.	व पता			एन. नं.	व पता	
139.	076659	श्री हेमन्त पालीवाल जी 702 मेरीगोल्ड, वैली ऑफ फ्लोवर्स, ठाकुर विलेज, कन्डीवली (ईस्ट) मुंबई 400101	एसीए 01.07.03	148.	098049	श्री अतुलकुमार नेशनल सिकोरिटीज, चौथा तल, ट्रेड वर्ल्ड लोवर पारेल, कमला मिल्स कम्पांड, सेनापती बापटमार्ग, मुंबई-13	एसीए 11.08.03
140.	078111	श्री मेहता प्रनेय बी 10/781 इन्द्रलोक कम्प्लेक्स, आपोजिट लेक व्यू होटल, सूरत दुमस रोड पिपल्लोड, सूरत 395007	एसीए 11.03.03	149.	100045	मिस. समीर निनगो अनजानी 204, कृष्णा कुंज 3, टांखे नगर, एस एन रोड, मुलड (वेस्ट) मुंबई 400080	एसीए 18.12.03
141.	078544	श्रीमती अरुणती जसे मेहता ए 20, हाईवे व नि बिल्डिंग, नियर तीन हाथ नाका, थाने (वेस्ट) थाने 400604	एसीए 31.07.03	150.	100161	श्री जोशी मनदार विनायक 1 दिनाथ समरुथ सोसाइटी के डब्ल्यू चियेले पाथ, दादर, मुंबई 400028	एसीए 01.04.03
142.	086540	श्री मिठन लाल प्लाट नं. 125, स्टीक, मुसलगांव सिनार, जिला नासिक सिनार 422112	एफसीए 30.09.03	151.	100327	श्री दोषी ग्र्याम कांतिभाई 25 सवानी अपार्टमेंट, एम जी रोड घटकोपार (ईस्ट) मुंबई 400077	एसीए 01.12.03
143.	088719	श्री गौरव डांग एक्सोनमोबिल क इंडिया कल्पतरु प्वाइंट, प्लाट 107 रोड नं. 8, सिवान (ईस्ट) मुंबई 400022	एसीए 01.04.03	152.	100335	श्री साह नितिन महेन्द्र भाई ए/7 मंगल कुंज, एस वी रोड, बोरीवाली वेस्ट मुंबई 400092	एसीए 31.03.03
144.	089187	श्री बागची अनीमेश डिप्टी जनरल मैनेजर (फाइनेंस एण्ड एकाउंट्स) विलोस्कर ब्रॉदर्स लि. विलोस्कर वार्ड, सागली-308	एफसीए 02.01.04 02.01.04	153.	100484	श्री दोसी दिपक कुमार 15 बीकानेर भवन, नियर जैन टेम्पल, जे.बी. नगर के पीछे, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400059	एसीए 30.09.03
145.	093632	श्री जैन संजय कुमार आई पी सी एल लि. महाराष्ट्र गैसक्रैकर कम्प्लेक्स पेट्रोके मिकल टाउनशिप, जिला राय गड नागो थाने, रायगड-125	एफसीए 01.05.03	154.	100533	श्री सुरेशनानिकरामयूचलानी कमरा नं. 1, बैरॉक नं. 553 अवाटराम चौक उल्लहास नगर 421002	एसीए 01.04.03
146.	095537	श्री बंसल विपिन ए 102, कैमेलिया, जैमबुयकर चौक, एस आर पी रोड, वानोवारी, पुणे 411040	एफसीए 01.09.03	155.	100540	श्री संदीप सर्वोत्तम पाई वी एम सलगोवकर एण्ड ब्रादर्स सलगोवकर हाउस, डा. एफ एल गोम्स रोड, वासको डा गामा गोवा 403802	एफसीए 01.04.03
147.	095934	श्री श्रीवास्तवा राहुल ए 702, सूर्यादीप टॉवर्स, नियर नरोदा बैंक, गुरुकुल, अहमदाबाद-0	एसीए 20.03.03	156.	100564	श्री रनाडे मिलिंद मनोहर ए/302 अश्वनी सोसायटी इकसार रोड, बोरीवली वेस्ट मुंबई 400091	एसीए 12.02.04

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
157	100690	श्री शाह जगनेश रतीलाल 11, श्याम भुवर्न, गोखले रोड मुलड (ईस्ट) मुंबई 454 081	एसीए 27.08.02	166	101337	श्री मुनावर मोहीउद्दीन अनवारे 406 एनूर एजान फेस 2 पाइप रोड, नियर कूरला नर्सिंग होम, कूरला वेस्ट, मुंबई 400 070	एफसीए 05.12.03
158	100825	श्री राजेन्द्र कुमार माईकुलाल पासी, जूनि. एकाउंट ऑफिसर भारत संचार निगम लि. माइक्रोवेव कम्पाउंड थार 454 001	एफसीए 07.02.04	167	101476	श्री विपुल प्रवीन चन्द्रा शाह 3/ए/5 म्युनिसीपल स्टाफ क्वार्टर, एन.आर. स्कूल बाँडी लाइन चार रास्ता, सी जी रोड अहमदाबाद 380 009	एसीए 23.09.03
159	100964	श्रीमती नेहा निशिथ शाह 60 योगेश्वर नगर सोसाइटी नियर लिटिल फ्लावर स्कूल, भाटा पालडी अहमदाबाद 380 007	एफसीए 01.09.03	168	101535	श्री सुबत्रा मिश्रा 12/32 विजय नगरी एनेक्सी घोडबुन्दर रोड, वागबिल नाका, कासार वाडावली थाने (वेस्ट) थाने 400 601	एसीए 07.03.04
160	100994	श्री दुतिया अमर शांतिकुमार बी/401 राहुल अपार्टमेंट, आपोजिट सोपरर्स स्टोप, एस बी रोड, अंधेरी वेस्ट मुंबई 400 098	एसीए 01.04.03	169	101715	श्री शाह निलेश नेमचंद ए/5, पुनम बिल्डिंग, सीतलादेवी टेम्पल रोड, महिम, मुंबई 400 016	एसीए 15.01.04
161	101123	श्री गायतोंडे रोहित सुरेन्द्रा डी 5 श्री क्रीति सी एच एस लि. विद्यानगरी मार्ग, सान्ताक्रूज ईस्ट मुंबई 400 098	एसीए 01.04.03	170	101768	श्री ब्लेसन ओमेन 504/बी स्ट्रेलिंग अपार्टमेंट, कन्देरपाडा, ऑफ लिंक रोड, दहीसार (वेस्ट), मुंबई 400 068	एसीए 01.04.02
162	101234	श्री धनुका प्रकाश लक्ष्मण प्रसाद, 17 सर्वा शेरी बिल्डिंग रामचन्द्रा लेन, मलाड वेस्ट मुंबई 400 064	एसीए 27.02.04	171	101974	श्री मेहता सुक्रुत शारदुल 36 रतनाबाद, टुकाराम जोशी रोड, मुंबई 400 007	एसीए 16.10.02
163	101266	श्री सोमानी संजय कुमार प्रभु दयाल एफ 7/6 हरी निकेतन को.ओ. सोसाइटी, बनगुर नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई-90	एसीए 18.08.03	172	102148	श्री जेटवा मयूर कुमार प्रेम जी भाई, 701/ए सालासार क्लासिक, सी एच एस लि., नियर नगर भवन, फटेक रोड भायानदर वेस्ट 401101	एसीए 01.04.03
164	101286	श्री नवीन ओमप्रकाश अग्रवाल 302 भवानी कृपा, चंदन पार्क नियर मोनिका टॉवर, भायानडार ईस्ट, भायानडार 401 105	एफसीए 01.04.03	173	102343	श्रीमती सोनाली रिशिकेश धनवते, 245 जी रवि शंकर शुक्ला रोड, जीपीओ के पीछे (राज लक्ष्मी मार्ग) सिविल लाइन, नागपुर 440 001	एफसीए 03.07.03
165	101293	मिस सौरल अश्विन मेहता 59 मेकर टॉवर, कफी परेडी मुंबई 400 005	एफसीए 31.12.03	174	102415	श्री कारिया परेश शांतिलाल बी 315 भावेश्वर आरकेड, श्रीयास टॉकीज के पीछे, एल बी एस मार्ग, घडकोपार वेस्ट, मुंबई 400 086	एसीए 15.01.04

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
175.	102678	श्री ब्रजेश रामेश चंद्रा जानी 17 रवि किरन सोसायटी नियर आर.सी पटेल हाई स्कूल वासना, अहमदाबाद 380 007	एफसीए 31.12.03	184	103334	श्री श्रीराज अजीज वस्तानी बी 5/311 इडन गार्डन, एस.नं. 33/1/1 पुने नगर रोड नियर वीक फील्ड फैक्टरी, पुने 411 014	एसीए 15.12.03
176.	102744	श्री कोठारी हर्ष एम. डीएसपी मेरील लिंच इनवेस्टमेंट मैनेजरर्स लि. 514 राहेजा चैम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021	एसीए 01.04.03	185	103355	मिस मयूरी बल्लभ घेलानी 101 ई वाकेश्वर रोड, इन्द्रा भुवन, ग्रांड फ्लोर, मुंबई 400 008	एसीए 01.04.03
177	102899	मिस जोशी रेश्मा जेयेन्द्रा 234, साई प्रसाद, 10वां रोड, चैम्बुर, मुंबई 400 071	एसीए 04.03.04	186.	103361	श्री शाह हितेश चन्द्राकांत 203/बी शांतिदीप 60 फीट रोड, भयेंडर (वेस्ट) थाने डिस्ट्रिक्ट, भयेंडर 401 101	एसीए 09.02.04
178	102932	श्रीमती शिल्पा राजेश बोहरा त्रिनेटी इन्फोटेक लि., यूनिट 2008-10, 20/1एफ, बाँस बाँस कामर्सियल सेंटर, जोरडन कोवलून, हॉगकांग-0, हॉगकांग	एसीए 01.04.03	187.	103495	श्री सुमित जैन ए 304, राज उमंग 1, शिवा बल्लभ रोड, अशोक वैन, दहीसार ईस्ट, मुंबई 400 058	एसीए 07.07.03
179	102969	श्री कमल अनिल कपाडिया 817, बाम्बे मारकेट, टाररियो रोड, 8वां तल, मुंबई 400 034	एफसीए 31.10.03	188.	103522	श्री गुप्ता संजय हेमराज 88 माउंट यूनीक्यू, 62-ए पेडार रोड मुंबई 400 026	एसीए 01.10.03
180.	103000	श्री लोदा विवेक विरेन्द्रा वाइसरॉय पार्क, 9 बी टॉवर ए ठाकुर क्लेज, कंडीवली (ईस्ट) मुंबई 400 101	एसीए 01.04.03	189	103546	श्री दिवेतीयाविवेक गौरंगभाई 12 हरीद्वार 23 पटेल सोसाइटी गुलवाई टेकरा, पंचवटी, अहमदाबाद 380 006	एसीए 16.09.03
181	103058	श्री पटेल आकश प्रवीन स्नेह त्रुपति ए 13, स्वरूप टेन्टामेंट, मनजलपुर, बडोदरा 390 011	एसीए 01.04.03	190	103679	श्री अपूर्वा डी सावाई 303 उषा विल्ला, अमरुट नगर, घटकोपार वेस्ट, मुंबई 400 086	एफसीए 20.02.04
182.	103121	श्री योगेश रामेश कुमार ए 701 पुनम रेसीडेसी 1 होली क्रॉस रोड एक्स, आईसी कालोनी, विरशी कॉम्प्लेक्स, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400 013	एफसीए 01.04.03	191	103757	श्री राकेश कुमार जयंती लाल पुनमिया 003/ए, बिल्डिंग नं. 1, आकंक्षा, गोरे गांव (वेस्ट) मुंबई 400 062	एफसीए 23.03.04
183.	103240	श्री संघु ब्रजन जय आनंद आनंद 7वां रोड, सनदुवाडी, चैम्बुर, मुंबई 400 071	एसीए 30.09.02	192.	103774	श्री जगद चन्द्रेश मानुभाई सी/40 सुनील सोसाइटी, बी/एच निर्मल सोसाइटी, मणीनगर अहमदाबाद 380 008	एसीए 01.02.04

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
193.	103966	श्री धोबाले रविन्द्रा बब्ब 403, बिजल अपार्टमेंट, रामचंद्रा नगर 1 पंच पाखाडी, कामगर हॉस्पिटल रोड, धाने (वेस्ट), धाने 4000604	एसीए 01.04.03	202.	104897	मिस.सीमा विनोदचंद्रा कोठारी 1 चांदनी, ओपोजिट मयूर सिनेमा, एस एम रोड, कंडाविली वेस्ट मुंबई 400 067	एसीए 01.12.03
194.	104075	श्री अय्यर नितिश आर बी 1/20 मेधुवरुध सोसायटी नियर राना पार्क, घाटलोडिया अहमदाबाद 380 061	एसीए 14.02.04	203.	104906	श्री भाटिया चिंतन किरण भाई ए/7-ए प्रिया अपार्टमेंट, आपोजिट हाई कोर्ट जज बंगलो, सेटलाइट, अहमदाबाद 380 015	एसीए 28.08.03
195.	104181	मिस.दिलनाज भिषु क्लिमोरिया 275 बी कैप्टन बिल्डिंग, तीसरा तल, चिकलवाडी, ग्रांड रोड, मुंबई 400 007	एसीए 28.03.03	204.	105050	श्री महेश सांताराम मैया बी 301 प्रयास बिल्डिंग नं. ए 45, एवरसाइन सिटी, गोखीवारे, जिला धाने वासाई 401202	एसीए 22.12.03
196.	104202	श्री वेंकटेश विश्वनाथन सी 12 नारायण भुवन टिनेट को ओ हाउसिंग सोसायटी लि. राजीव पथ, 4वां क्रॉस रोड, जिला धाने, डोमबीविली ईस्ट	एसीए 01.04.03	205.	105079	श्री जिगनेश बंसत केनिया वास्ते मैसर्स केपीएमजी, पी.ओ.बॉक्स नं. 641, पोस्टल कोड 112, रूवी-0, सल्टनेत ऑफ ओमान	एसीए 24.11.03
197.	104346	श्री संजय नवनी ला कारिया अम्बावाडी, गायत्री कृपा पटेल कम्पाउंड, जिला जोनागढ़ (सौराष्ट्र), जौनागढ़ 362 220	एसीए 12.09.02	206.	105140	श्री रीसब अरुणकुमार गांधी 10 सुदामा, 214 वाकेश्वर रोड, मुंबई 400 006	एसीए 26.08.03
198.	104354	श्री गगन चौधरी ए 402 समीर (सीतल नगर) चक्रवर्ती अशोक क्रॉस, रोड 1 ओपोजिट चिल्ड्रन एकाडमी स्कूल, कंडीवाली ईस्ट, मुंबई	एसीए 23.05.02	207.	105192	मिस दीपारानी लक्ष्मण मुनगीकर 20/576, नेहरू नगर, कुरला ईस्ट, मुंबई 400 024	एसीए 12.12.03
199.	104381	श्री खण्डेकर समीर प्रकाश 4/6, 2/1 कल्पतरु सीएचएस सेक्टर 14 एयरली, नवी मुंबई 400101	एसीए 01.04.03	208.	105252	श्री सत्येन भारतसेठ 6/बी बाबा रामदास बिल्डिंग, 2, हेमू कालानी रोड 2, इरानी वाडी, कांदीवली (वेस्ट) मुंबई 400 067	एसीए 24.12.03
200.	104696	श्री विनय एम घटीकार डब्ल्यू/22 ध्याना कुंजा सीएच एस, पोस्ट ओ. आई आई, टी, पोवाई, मुंबई 400 076	एसीए 29.12.03	209.	105271	मिस मीताली अनिल कुमार हरसोले, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाईफ इन्शोरान्स कंपनी, 5वां तल, बंद्रा कुरला कम्पलेक्स, बंदरा ईस्ट, मुंबई	एसीए 31.03.03
201.	104705	श्री रणजीत अग्रवाल ए/102, गोकुल गगन को.ओ हाउसिंग सोसाइटी लि. ठाकुर विलेज, कांदीवली (पूर्व) मुंबई 400101	एफसीए 21.08.03	210.	105583	श्री नेहाल धनेश कुमार सम्पत 351/ए राधा बिल्डिंग, रूम नं. 22/26, ओपोजिट ठाकुरद्वारा, पी ओ जे एस एस रोड, मुंबई	एसीए 26.09.03



क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
211	105636	श्री सुदेश के.बी.के.नायर नियर एन वाई एक आई हॉस्पिटल, जे.बी.नागर पो ओ अंधेरी ईस्ट मुंबई 400 059	एफसीए 11.03.04	220	106789	श्री विरल नागरदास कनाबार हिलेस बंगलो, नियर गार्डन अम्बावाडी केसोड 362 220	एसीए 12.09.02
212	106098	श्री अजय जगदीश टिबरीवाला ए 7/44, गोयल इटर्सिटी, ओपोजिट टी.बी.टॉवर, ड्राइव इन रोड, अहमदाबाद 380 054	एसीए 01.08.03	221	106815	श्री भारत के.सेठी एफ/3ए विसरामयोग सीएचएस लि., 145 ए एल टी रोड अपोजिट डोट बोसको स्कूल, मुंबई-400091	एसीए 02.09.03
213	106276	श्री हिमांशु विजय पांड्या वास्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. दूसरा तल, फाइनैस डिपार्टमेंट आपटर रिंग रोड, बैंगलोर 560 045	एसीए 26.05.03	222	106889	श्री धर्मेन्द्र किरीत देसाई 4, रतनादीप, पी.एम.रोड, सेट्रकूज वेस्ट मुंबई 400 054	एसीए 03.03.04
214	106482	श्री तेजस श्याम मोरे 602, शारदा गोविंद बिल्डिंग नियर नीलम नगर फेस 2, गगनपाडा मुलंड ईस्ट, मुंबई 400 081	एसीए 29.10.03	223	106959	मिस.मीता चन्द्राकांत मेहता ए 7 मोन्टवरट 2 एस नं. 128/2 ए 11, पासडन सस रोड, पासडन, पुणे 411 021	एसीए 26.03.03
215	106483	श्री प्रदीप निवस्तुती बब्बर हाउस नं. 1444, बार्ड नं. 32, नियर सबकर मस्जिद, उरान-इस्लामपुर, तालुका बाल्वा सांगली-415 409	एसीए 21.07.03	224	107126	श्री हुजेफा सोईब बसराई बीना बीना अपार्टमेंट ए/504, पी.टी.रोड, सेवरी वेस्ट मुंबई 400 015	एसीए 07.10.03
216	106514	श्री बिजू विक्रमन ग्राट घोरनटोन एक्स्प्रेस पी.बी. 1157, गाबोरवन-0 बोस्टवाना	एसीए 11.02.04	225	107261	श्री धर्मेस पुरुसोत्तमभाई पटेल एम 262/139 सुंदरवन आपार्टमेंट, सोला रोड, नारानपुरा अहमदाबाद 380 063	एसीए 16.02.04
217	106594	मिस.नाजनीन एच.दालाल के 4/64, मेरवनजी काम्पा पार्क, कामा रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400 058	एसीए 17.11.03	226	107302	मिस.रंजूवाला मंगेश पुरानीक 49, अम्बाजेरी ले आउट नागपुर 440 010	एसीए 20.04.03
218	106600	श्री दयानंद गंगाधर गजेली 101 मिताली आपार्टमेंट, तेजो भवन हाल के पीछे, नियर गोडदेव नाका, बी.पी.रोड, मयांदार 401 105	एसीए 13.10.03	227	107396	श्रीमती नेहाल कपिल ठाकरे 12 ए ओनर्स कोर्ट, ए. रोड, चर्चगेट, मुंबई 400 020	एसीए 04.09.03
219	106629	श्रीमति मानसी अनिल शाममानी 11 कुष्ठा काम बंगलो, ओपोजिट कालीकाला टेम्पल, इन्दिरा क्रिज रोड, अहमदाबाद 382475	एसीए 24.07.03	228	107533	श्री पिनल दिलीप कुमार साह 2084 नबाब खानचो नीजीबुधर पोले, मनदवी पोली मनेक चौक अहमदाबाद 380 001	एसीए 15.03.04

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
229	107611	श्री सत्येन्द्र अरविंद गोरे 773/6ए, शाश कृपा नियर कमला नेहरु पार्क, पुणे 411 004	एसीए 13.02.04	238	108051	श्री अमोल अरविंद पुडके 3 ई 4, राजकमल कम्पलेक्स पंचसील स्कूअर, धनटोली, नागपुर 440 001	एसीए 01.11.03
230	107627	श्री विरेश जयावंत गोरकसा 2/23, चैम्पूर वैभव सोसाइटी साहाकार नगर नं.5, सैल कालोनी, चंबुर मुंबई 400 071	एसीए 15.12.03	239	108182	श्री ए.आर.शंकर फ्लैट नं. 12, बिल्डिंग 66ए वंसीवट को.ओ.हाउसिंग सोसाइटी, बंदावन कम्पलेक्स धाने, 400601	एसीए 13.06.03
231	107713	श्री किरण बी.जोशी ई/2-601 हाईलैंड पार्क, नीयर जयशस्त्री नगर, मुलंड कालोनी गुरु गोविंद सिंह मार्ग, मुलंड वेस्ट, मुंबई 400 080	एसीए 08.12.03	240	108262	श्री मुकेश कुमार जैन 52 चम्पा गैली, प्रथम तल, रूम नं.4, कालबादेवी, मुंबई 400 002	एसीए 22.03.04
232	107720	मिस वीपाली विष्णु टंके 67/2230 नेहरू नगर, कुरला ईस्ट, मुंबई-400024	एसीए 26.12.03	241	108381	श्री जनैश जगदीश भाई पटेल 4 सर्वोत्तम नगर सोसाइटी सेंट एक्सवेर्स स्कूल अहमदाबाद-0	एसीए 30.09.03
233	107781	श्री अमे महेशवर दाते 4 आर्शीवाव बिल्डिंग, वातापाडा रोड, बोरली ईस्ट, मुंबई 400 066	एसीए 22.01.04	242	108492	श्री नीरज ओंकार नाथ खन्डेलवाल 15/53, त्रिवेणी को.ओ.हा.सो. आदर्श नगर, कामत क्लब के सामने, न्यू लिंकरोड, मुंबई-102	एसीए 17.02.04
234	107870	श्री अरुण कुमार अशोकन के. 205, दूसरा तल, कुनाल को.ओ.हाउसिंग सोसाइटी लि. उदयश्री रोड, मुंबई 400 042	एसीए 04.09.02	243	108534	श्री अमित अरुण देशपांडे सारथक प्लाट नं. 15, गांधी नगर, डोमबीवली-421204	एसीए 11.07.02
235	107900	श्रीमती स्वाती राजेश श्रीधर शीरीस कुंज, प्लॉट नं.12 बी आनंद विहार सोसाइटी, 20वां रोड, खार (वेस्ट) मुंबई 400 052	एसीए 25.09.03	244	108536	मिस पद्मीको अनिता मे ए/10, प्रयोग हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट नं.125, प्रभात कलोनी, सैटाकूज ईस्ट मुंबई 400 055	एसीए 09.02.04
236	107907	श्री अशले फिलिप मेनेजीस हिल ग्लेड, फ्लैट 6, 7ए, पाली रोड, बांदरा, मुंबई 400 050	एसीए 01.04.03	245	108582	श्री संतोष कन्हैयालाल व्यास बी 18 फ्रीड पार्क, सेनापती बापट रोड, पुणे 411 016	एसीए 10.07.03
237	107932	श्रीमती मोना रिखल साह सी 1110 राज रेसीडेन्सी 11, नियर माहावीर नगर, दहानुकर वाडी, कांदीवली (वेस्ट) मुंबई 400 067	एसीए 23.03.04	246	108614	श्री जलानी महेश कुमार 504, तेजश्री को.ओ. हाउसिंग सोसाइटी पलट नं.2, सेक्टर, एयरोली नावी, मुंबई 400 708	एसीए 01.04.03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
247	108615	श्रीमती मरुनालमनदार धोरात एसीए 1 श्रीकंठ निवास, संत टुकराम रोड, मुलंड ईस्ट मुंबई 400 081	28.12.03	256	109111	मिस गोरी विजय भुलसकर एसीए 3/बी इसमेल बिल्डिंग, 381, डॉ. डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400 023	22.07.03
248	108693	श्री मकरंड अरविंद लिमये एसीए 72/2बी 17 विकास नगर, नवी पेठ पुणे 411 030	22.02.04	257	109141	श्री हेतल अरविंद भाई गांधी एसीए 207/1 शास्त्री नगर, डॉ. बी.ए. रोड, ओपोजिट शिवसेना गली, भायानवर वेस्ट, भायानदार 401 101	22.04.03
249	108888	श्री नितिन सुरेश कुमार अजमेरा एसीए आई सी आई होम फाइनेस कं. लि., ग्राउंड फ्लोर, वसंत प्लाजा, बागल चौक, राजाराम पुरी, कोल्हारापुर 416 001	19.01.04	258	109508	मिस राधिका अपुलिगम एसीए नं. 10, गोविंद नगर, नागपुर 440 025	16.09.02
250	108942	मिस पुरवी पंकज साह एसीए 8 गजदार स्ट्रीट जसोदा मनसन दूसरा तल, चीरा बाजार, मुंबई 400 002	18.09.03	259	109843	मिस हर्षा जेठानंद बुयाछा एसीए बिल्डिंग नं. 5, रोड नं. 2, पवन बाग, चिंचोली गेट, मलाड वेस्ट, मुंबई 400 064	01.04.03
251	108978	श्री माहावीर कुमार जैन एसीए ग्राउंड फ्लोर, फ्लैट नं. 3 ए/4, बालाकृष्णा अपार्टमेंट लक्ष्मी नगर (ईस्ट) नागपुर 440 022	01.11.03	260	109910	श्री विक्रम वंसत वातीर एसीए 'श्री' 14, सूर्या सोसाइटी लक्ष्मीपुरा रोड, गोरवा बछोदरा 390 016	01.02.04
252	109013	श्री सुशांत श्रीकांत ओका एसीए वावर साई श्रीर्ति सीएचएस वाई बिंग, तीसरा तल, आनंद पाटेल रोड, शिवाजी पार्क मुंबई 400 026	12.03.04	261	109937	श्री दीपक दास निवेश पररेरा एसीए 17 बी ईला बिस्टा, सरलिम, धर्मपुर पो.ओ. सलसीटी गोवा 403 725	28.08.03
253	109043	श्री हार्दिक प्राबोध कुमार शाह एसीए पायलर जवाला बिल्डिंग, नियर पालवि पोस्ट ऑफिस, फतेह नगर पालडी, अहमदाबाद 380 007	01.04.03	262	109999	श्री हर्ष नासिन शाह एसीए न. 7, फिलिप्स सोसाइटी, वानावाडी पुणे 411 040	15.12.03
254	109089	श्रीमती कुमुदीनी प्रमोद इटकर एसीए 303, दूसरा तल, अनंत छाया क्रे.ओ. हाउसिंग सोसाइटी, एन एस एस रोड, नियर गोपी टॉकीज, जिला याने, डोंबिवली वेस्ट-421202	01.11.03	263	110005	श्री सत्याजीत दिनायक एसीए कोंडिनीवा फ्लैट 4, आनंद वन अपार्टमेंट बुरुदगांव रोड अहमदनगर 414 001	27.08.03
255	109092	श्री विद्याधर मानसिंह कुरलेकर एसीए डी/121 कुरलेकर बिल्डिंग, गावठान पैमबुर, मुंबई 400 071	13.08.03	264	110033	श्री देवांग भुवरदास चौवासमा एसीए 24, सरदार नगर सोसाइटी कोलेज रोड, जुनागढ़	03.03.03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
265	110043	श्री आशीश अनन्त कारखानीस 5 शर्मा सफल्य, शिमपोली रोड, मुंबई 400 092	एसीए 21.01.04	274	110580	मिस रूणा मंगलेस सुरना पी 85, बंधवार पार्क वृड इन्डस रोड, कोलाबा मुंबई 400 005	एसीए 19.08.03
266	110089	श्री कल्पेश कन्हैयालाल जोशी कल्प कुंज, उपालीशेरी सिंधपुर 384 151	एसीए 01.04.03	275	110715	श्री अनुज हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रलेटनं. 3, तीसरा तल, बोर्स बिल्डिंग, एस नं. 1/3 व 4 ऊपर कोटसुड पोस्ट ऑफिस कोटसुड, पुने 411 029	एसीए 28.08.03
267	110283	मिस. शिल्पा पांडुरंग सेठी 23/25, पुरुषोत्तम, कंजी घाल, जोबा वाडी, ठाकुरद्वार, मुंबई 400 002	एसीए 18.03.04	276	110770	श्री सुरज नारायण लक्ष्मी निवास नं. 7, रूम नं. 9, आदर्श नगर, मेघवाडी, जोगे वरी (ईस्ट) मुंबई 400 060	एसीए 14.01.04
268	110285	श्री सोमित्रा अशोक जांबेकर ए 44 पनोरामा पार्क, शिव वल्लभ रोड, अशोकवन, दहीसार ईस्ट, मुंबई 400 068	एसीए 17.03.04	277	110776	श्री अभित रमेश हरन 239/8, जवाहर नगर, 15वां रोड, गोरे गांव (वेस्ट) मुंबई 400 062	एसीए 30.01.04
269	110326	श्री देवांग रजनीकान्त शाह बी/54, वासुदेव आपार्टमेंट पी पी रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई 400 069	एसीए 16.09.02	278	110803	श्री बीरेन भास्त शाह 33 जयस्वामी कृपा एम जी क्रॉस रोड नं. 3, कांदीवली (वेस्ट), मुंबई-67	एसीए 01.04.03
270	110348	श्री रमेश वेंकटेश्वरन अय्यर 18, तीर्थ डुपलेक्स, मनजलपुर, जी आई डी सी रोड बछेदरा 390 011	एसीए 05.02.04	279	110808	श्री मिमिश अनंदराज शाह एफ 1/बी सुयोजीत ट्रेड सेंटर सहारनपुर रोड, ओपोजिट राजीव गांधी भवन, नासिक 422 002	एसीए 16.03.04
271	110370	श्री सतीश सुंदर सेठी ए/104, टीकवुड, वंसत गार्डन नियर स्वप्ना नगर, बी आर रोड, मुलंड वेस्ट, मुंबई 400 080	एसीए 01.09.03	280	110858	श्री अजय कुमार संजीवा कोटीवन - जानपगौर लोज, रूम नं. 4, मोरी रोड, महिम, मुंबई 400 016	एसीए 20.02.03
272	110440	श्री कुलीन विरेन्द्र वेसाई बी/404, राज मनोर, लिवर्टी गार्डन, सरस्वती कॉलोनी, सेन्टाक्रूज, (वेस्ट) मुंबई 400 064	एसीए 01.04.03	281	110928	श्री अशीश शरद बेके 6 राहुल सोसाइटी नियर परमारथ निकेतन, पंचप्लाडी, थाने वेस्ट थाने 400 602	एसीए 03.09.03
273	110571	श्री नितिन गंगादास घांडक 402, रजनीगंधा, टालमिक्री रोड, सरास्वत कॉलोनी, सेन्टाक्रूज, (वेस्ट), मुंबई 400 054	एसीए 01.04.03	282	110932	श्री कौशल रमेश चन्द्रा शाह 303 न्यू मनी भुवन, 'बी' विंग, अपसरा स्टोर के पीछे 3 एम जी रोड, विले पारवत (ईस्ट) मुंबई 400 057	एसीए 06.01.03

क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	एन. नं.	व पत्र	क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	एन. नं.	व पत्र	दिनांक
283	110937	श्री अमर नवीन मल्ले 204 हीरा मल्ल, नियर वंदना सिनेमा, एल बी एस मार्ग, थाने (वेस्ट) थाने 400602	एसीए	31.01.04	292	111484	श्री कल्प अम्बाल खेडंडकाला एसीए 198 रविश्वर पथ, 930 बुधेर पथ (न्यू) भोरी अली प्रथम तल पुने 411 002	एसीए	11.11.03	
284	110981	श्री शारदिल प्रदीप मजुमदार 14 तीरथ नगर सोसाइटी-1 नियर भूवदेव, चार रास्ता, घाटलोडिया अहमदाबाद 380 061	एसीए	30.03.03	293	111504	श्री भितेश राजेन्द्रा वामानिया 76-78 प्रभु भुवन, तीरा तल, वीपी रोड पुर्वाई 400 004	एसीए	29.01.04	
285	111011	श्री गणेश नारायण 31 शिव सागर को.ओ हाउसिंग सोसाइटी, महात्मा फुले रोड, विष्णु नगर, डोंडीवली 421202	एसीए	25.05.03	294	111519	श्री सौरभ किशोर मुन्नी सी/312, सबरमती, साहाकर ग्राम, अशोक नगर, कांदीवली -ई मुंबई 400 101	एसीए	05.01.04	
286	111023	श्री भद्रेश प्रबोध व्यासा 6 ए जय संतोशी नगर, नियर पेट्रोसपम, करेली बाग, बछोदरा 390 018	एसीए	06.10.02	295	111562	मिस जुई बोगेश हाथी विभूति बोग प्लॉट नं. 307/2, सेक्टर 7ए, गांधीनगर 382 007	एसीए	01.02.03	
287	111259	श्री विक्रान्त गणेश कुमार भाटिया ए 2 नन्द अपार्टमेंट, अपोजिट विजया बैंक, गुरुकुल रोड ड्राइव इन, अहमदाबाद 380052	एसीए	01.04.03	296	111640	श्री अनिल कुमार वल्लभ दास घेलानी, 101, खालकेश्वर रोड, इन्दिरा भवन (वेस्ट), ग्राउंड फ्लोर, मुंबई 400 006	एसीए	01.04.03	
288	111263	श्री तेजस प्राफुल चोकसी डी/ए 403 स्कॉई इस्ट, वलनार्ड ग्रांव, नियर टैंक रोड, मलड (वेस्ट), मुंबई 400 064	एसीए	01.04.03	297	111649	मिस. स्वीटा राजेश कुलकर्णी 'इछ' 89/9ए, शिक्षक नगर, पोंड रोड, पुने 411 038	एसीए	26.12.03	
289	111265	श्री गोपाल धनश्याम भाई संघवी 301 चारकोप सुरक्षा को.ओ. सोसाइटी, प्लॉट नं. 14, आर डी पी 2, चारकोप कांदीवली (वे.) मुंबई 400 067	एसीए	17.09.03	298	111827	श्री विशाल मोहन शाह भगवान भुवन, 5वां तल, 196 सामुल स्ट, मस्जिद बुन्दर, मुंबई 400 009	एसीए	22.09.03	
290	111399	श्री दीपक कुमार बनजी फुरिया प्लॉट नं. 3, दूसरा तल, सोनाली अपार्टमेंट, ओल्ड मुंबई आगरा रोड, चाराये थाने वेस्ट, थाने-601	एसीए	01.04.03	299	111841	श्री सतीश रामजी देडिया सरस्वती सदन, प्लॉट नं. 1/2, ग्राउंड फ्लोर, देवी बयाल रोड, मुलंड (वेस्ट), मुंबई 400 080	एसीए	26.09.03	
291	111474	श्री विनय कुमार एम सेठी काना हाउस, पोस्ट कोडबूर, उडुपी 576 106	एसीए	10.01.04	300	111861	श्रीमती सुनीता सुलतान वदानी 206 सार्जनय विकास, रामनगर स्टेशन रोड, नियर आर टी ओ ऑफिस, डोंडीवली 421 201	एसीए	01.01.04	

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
301	111867	श्री हिमांशु मनसुखलाल भोजनी, 195/10, जवाहर नगर, खेतन कुटीर, रोड नं. 3, गोरीगांव वेस्ट, मुंबई 400 052	एसीए 25.08.03	310	112292	श्री भारतेश बासवाराज पुजारी बी 603 विकास अपार्टमेंट साई बाबा नगर, मिरा रोड ईस्ट, मीरा रोड	एसीए 09.03.04
302	111886	मिस राधिका मानुभाई रूपारेल डी/8 अतुर पार्क, एस टी रोड, चैम्बुर, मुंबई 400 071	एसीए 27.03.03	311	112307	श्री अश्विन अमरतलाल जैन ई/1011 10वा फ्लोर, रॉयल स्मार्ट एस वी रोड, गारेगांव वेस्ट, मुंबई 400 082	एसीए 01.04.03
303	111900	श्री अभीशेख पनसारी फ्लैट नं. 151, सीलार्ड द, कफी परेड, मुंबई 400 005	एसीए 01.04.03	312	1112365	श्री सलीम नूरमोहम्मद वाहोरा बिल्डिंग नं. 21, फ्लैट 603, महडा, ओसीवारा, गुलमोहर, सीएचएस लि. न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई 400 053	एसीए 12.01.04
304	111920	श्री संजय प्रताप राय लखानी 303, प्रमुख कम्पलेक्स, कांटा स्ट्रीट विकास, गृह रोड, राजकोट 360 002	एसीए 01.04.03	313	112395	श्री निहाल मनीकांत शाह जी 9 नलांदा कम्पलेक्स, बी/एच होटल प्रेसीडेंट, तीन भटी, जाम नगर 361001	एसीए 31.03.03
305	111946	श्री सत्यावन रामाकांत राने 56/158, सुभाष नगर, पंचशील सी एच एस चैम्बुर, मुंबई 400 071	एसीए 17.11.03	314	112401	मिस सोनाली कृष्णा नाथ पेडणेकर ए/12 दीप शिखा, एस वी रोड, गारेगांव वेस्ट मुंबई 400 062	एसीए 21.01.04
306	112071	श्री संचय वल्लभ अग्रवाल 604 1 ए नेस्टले अपार्टमेंट, पी बी मार्ग, निचर दीपक सिनेमा, वर्ली, मुंबई 400 013	एसीए 31.03.03	315	112447	मिस जिगीषा किरण चन्द्रा जैनी आलाजखिया बिल्डिंग, बी ब्लॉक, प्रथम तल, रूप नं. 17, खैतवाडी, नवी लेन, मुंबई 400 004	एसीए 31.03.03
307	112198	श्री मुस्तफा जोएब उदयपुरवाला बी जी एण्ड कं., 49, भाजीपाला लेन मुंबई 400 003	एसीए 29.03.03	316	112465	श्री जितेन्द्र कुमार भागुभाई पटेल 26, लक्ष्मीकुंज टेनामेंट, सामने पारस नगर, इशानपुर, वटवा रोड, अहमदाबाद 382 443	एसीए 18.02.03
308	112248	श्री विकास गुप्ता ए 6/53, नाबर्ड नगर ठाकुर कम्पलेक्स, कांदीवली ई मुंबई 400 101	एसीए 31.03.03	317	112487	श्री स्वपनिल रामचन्द्रा वैशम्पयान बी/8, हजे लाई सोसायटी गोधान लेन नं. 1, अंधेरी वेस्ट मुंबई 400 058	एसीए 19.01.04
309	112271	मिस योगिता विभाकर प्रधान आर एच 12 दीपा सोसायटी, सेक्टर 2 यरोली, नवी मुंबई 400 708	एसीए 23.12.03	318	112557	श्री कुमार जनक शाह ब्लॉक नं. 10, बिन्दु बिल्डिंग, 17 विश्व भारती सोसायटी जुहु लेन, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई 400 058	एसीए 08.01.04

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
319	112577	श्री वैभव विश्वानंद नायक, एसीए सी 25 कुमुद नगर, एस वी रोड, गोरेगांव वेस्ट मुंबई 400 104	01.03.04	328	113043	श्री विकस जितेन्द्र गांधी एसीए प्रलहाद शांति नगर सीएचएस फ्लैट नं. 202, सेक्टर 4, बिल्डिंग नं. सी 8, (ईस्ट) मीरा रोड 401107	22.03.04
320	112662	मिस फाल्गुनी असविन भाई शाह 9 आदर्श सोसाइटी, स्वातिक चार रास्ता, नवरंगपुरा अहमदाबाद 380009	08.07.03	329	113062	श्री संनजीव दाताराम पंचाल एसीए ई 13/4, त्रिवेणी सीएचएस लि सेक्टर 15 एयरोली नवी, मुंबई 400708	17.03.04
321	112684	श्री अयज मोतीलाल तमोली एसीए एक्सपरो इडिया लि. आफिस क्वार्टर्स, कांदीवली वेस्ट मुंबई 400 067	19.01.04	330	113183	श्री संदीप श्री प्रकाश सोमानी एसीए सयी 101 ओम सुर्यादया सीएचएस लि. रावल पावा, दहीसार ईस्ट मुंबई 400 068	31.03.03
322	112878	श्री राजीव सुरज शाह एसीए ए/16 समीर अपार्टमेंट, 169 एस वी रोड अंधेरी (वेस्ट) मुंबई 400 058	30.12.03	331	113187	मिस शिवाली अनुप अग्रवाल एसीए एल 19, ग्रीन पार्क (मेन) नई दिल्ली 110 016	31.03.03
323	401397	श्री जैन अशीश एसीए बस्टोक एक्सचेंज मुंबई - बी एस ई, 25वां तल, सेकेंड्रीयल डिपार्टमेंट, पी जे टॉवर्स, फ्लैट, मुंबई-1	01.04.03	332	113232	श्री रीशिकेश संजीव साठे एसीए 6 लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट 1098/9 शिवाजी नगर, माडल कलोनी, पुणे 411016	27.05.03
324	112885	श्री सिद्धार्थ सतीश कुमार मेहता एसीए 1 जैन कलोनी नगर सेठ बंधा, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-380001	31.03.04	333	113277	डॉ. अर्चन अनन्तशिरवालकर एसीए रूम नं. 015, प्रफला निवास सरकोबदा नगर, जे एम रोड, भांडूप (वेस्ट) मुंबई 400 078	25.09.03
325	112962	श्री करुणेश गुणवंत राय मेहता एसीए दूसरा तल, मण्टी निवास सीसरा नॉर्थ साउथ रोड, 21 नवयुग सोसाइटी, बिले पारले (वेस्ट), मुंबई 400056	05.01.04	334	113385	मिस अपूर्वा सखिल पाटील एसीए 102, राम चिंतासन, बी विंग, शिवाजी नगर, शाहजी राजे रोड, मुंबई 400 057	16.09.03
326	112996	श्री अश्वनीकुमार दामोदर कुर्कन एसीए ए 46, सोनल अपार्टमेंट, आई सी कलोनी, मुंबई 400 103	23.01.04	335	113393	श्री अमितकुमार एसीए उपेन्द्रभाई पारेख ई 1/3, केशवबाग अपार्टमेंट नियर शेरेयास फ्लैटेशन अंबावाडी, अहमदाबाद 380 015	29.12.03
327	113014	श्री नवीन सत्यानारायण एसीए 1/4, पारीजात, हिंदु फ्रेंड सोसाइटी रोड, जोगीस्वरी (ईस्ट), मुंबई 400 060	27.11.03	336	113430	श्री राहुल सुरेश भाई सेठ एसीए 302 वाटिका फ्लैट, नियर संजीवनी हॉस्पिटल, न्यू सारवा मंदिर रोड, अहमदाबाद 380 007	01.04.03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
337.	113472	मिस सेजल नटवरलाल आशर एसीए 137/139 भनशाली मनसन, तीसरा तल, गिरगोम रोड, आपोजिट मजेस्टिक सिनेमा मुंबई 400 004	09.01.04	346	113924	श्री गौरव विनोद गुप्ता एसीए फ्लैट नं. 7, सिल्वर डाले अपार्टमेंट, महात्मा नगर, नासिक-422 007	01.04.03
338.	113613	श्री शीतल कुमार अग्रवाल एसीए बी 1, राम कुटीर बनगौर नगर गोरेगांव (वेस्ट) ऑफ लिंक रोड, मुंबई 400 090	25.03.04	347	113934	श्री किरन कुमार रमेश चन्द्रा शाह, ए/6, मनोरथ दत्तपाडा एक्स रोड नं. 2, बोरीविली (ईस्ट) मुंबई 400 066	11.11.03
339.	113642	श्री रवि ललित कुमार देसाई एसीए 14 न्यू क्यून रोड, पारेख हाउस प्रथम तल, बैंक साइड, मुंबई 400 004	01.04.03	348	113971	मिस नैना दुर्लभ पिट्टाडा एसीए पो ओ बॉक्स नं. 3020, दार ईस-सालाम, तनजानिया-0	28.08.03
340	113656	श्री हिरनकुमार अश्विनभाई एसीए पांडया 11, वटसल फ्लैट, दूसरा तल नियर लेड सोसाइटी, नेहरू पार्क लेन, वस्त्रापुर, अहमदाबाद	01.04.03	349.	113972	श्री प्रेम राज लद्धा एसीए 6/5, सहयोग अपार्टमेंट, केसव नगर, सुभाष ब्रिज, अहमदाबाद 380 027	18.09.03
341	113683	मिस. राखी कोटीक टालेले एसीए कोरपोरेट ऑडिट सर्विस, लारसन एण्ड टॉरबो लि. गेट नं. 5, पोवाई वर्क्स, साकी विहार रोड, मुंबई-72	03.02.04	350.	114011	श्री पराग गिरीश चंद्र आधेया एसीए वास्ते श्री गिरीश चन्द्रा, एच अदिया, सोमनाथ अपार्टमेंट 2 स्टे फ्लोर, नियर लोहानावाडी सट्टा बजार, वेरावल 362265	01.04.03
342	113730	श्री ईगुनी विश्वास वारडेकर एसीए 601, शेखर नगर, ए को ओ सोसाइटी, जे एस रोड, दाहीसार (वेस्ट) मुंबई-68	02.01.04	351.	114049	श्रीमती गायत्री सचिन एसीए सोनावणे 25/73, सुमन अपार्टमेंट, के सी रोड, रिक्लेमेशन, बंदरा वेस्ट, मुंबई 400 050	25.04.03
343	113740	श्री हर्षद श्रीपाद खुरजेकर एसीए प्लॉट नं. 4, मंत्री किशोर पार्क, भोसले नगर, पुणे 411 007	01.04.03	352	114120	श्री चेतन अशोक सुनीता बाफना एसीए वास्ते सेवा आटोमोटिव प्रा. लि. एक्स 46 एम आई डी सी नियर गरवारे, अम्बाद, नासिक 422 010	21.08.03
344	113819	मिस परवीन आमीनउल्लाह एसीए शाह सैयद, 13/3, शौलेश नगर, मुंबई 400612	31.03.03	353	114134	श्री बल्लभ राम भाटिया एसीए 401, दाफोदिल्स, होली क्रॉस रोड, आई सी कालोनी, बोरीविली (वेस्ट) मुंबई 400 103	28.08.03
345	113823	श्री रीतेश भारत देसाई एसीए बी 4/6, पुनित नगर एस वी रोड, नियर पॉस्टर डिपो, बोरीवेली (वेस्ट), मुंबई-400092	01.04.03	354	114153	श्री अब्दुल हमीद, एसीए रूम नं. 5, सागेर अपार्टमेंट, शांति नगर, वागले इस्टेट, रोड नं. 27 घाने 400 601	16.10.03



क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	एन. नं.	व पता	क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	एन. नं.	व पता	दिनांक
355	114291	मिस चैतराणी धनंजय बंडेकर	एसीए	29.01.04	364	114632	श्री राजीव किशोर भाई शाह	एसीए	29.12.03	
		बी वींग, 304 बस प्रभा					ए21, यमुना छाया को.ओ.			
		सी एच एस कस्तुर पार्क,					हाउसिंग सोसाइटी लि.,			
		शिमपोली रोड, बोरीवली (वे.)					जोशी वाडी गुप्ते रोड,			
		मुंबई 400 092					डॉबीवली-421 202			
356	114412	मिस पल्लवी प्रल्हाद	एसीए	18.07.03	365	114699	श्री अमित प्रकाश राहाने	एसीए	19.01.04	
		सनगावनकर					ए403 आर एन ए हाईट,			
		तथास्तु, 787/3,					आपोजिट फैंटासी लैंड,			
		प्लॉट नं. 38, रामानंद नगर,					अंधेरी ईस्ट,			
		कोल्हापुर 416 007					मुंबई 400 093			
357	114420	श्री सुशील प्रशांत कुलकर्णी	एसीए	01.09.03	366	114771	श्री अंकुर अशोक शाह	एसीए	23.02.04	
		133 डी वार्ड,					2/4, मलाड सी एच सोसाइटी,			
		दाता माहाराज लेन,					पोडर रोड, मलाड (ईस्ट)			
		कोल्हापुर 416 002					मुंबई 400 002			
358	114464	श्री सालिल सुधाकर नायक	एसीए	24.02.04	367	114781	श्री राकेश कुमार तुलसयान	एसीए	07.11.03	
		योगस फ्लैट नं. 203,					आर नं. 38/ए, प्रथम तल,			
		पाडुरंग काडी, रोड नं. 3,					342 कालबा देवी रोड,			
		गोरे गांव ई					150 डॉ विगास स्ट्रीट,			
		मुंबई 400 063					मुंबई 400 002			
359	114473	श्री देबादत्ता आचार्य	एसीए	08.01.04	368	114857	श्री मुकेश राजमल कोठारी	एसीए	24.03.04	
		ए/13, केवीएस मार्ग,					ए/17 गिरी अपार्टमेंट,			
		वी. एस. मार्ग					गोइका हॉल, जे बी नगर,			
		दादर वेस्ट					अंधेरी (ईस्ट),			
		मुंबई 400 028					मुंबई 400 059			
360	114482	श्री आरोन अंडीयन मेनेश्वर	एसीए	22.03.04	369	115035	श्री आशीश नंदकिशोर राथी	एसीए	22.01.04	
		ए 1-9, कृपा नगर,					108/110 रामनाथ सदन,			
		एस वी रोड, इरला,					प्रथम तल, कावेल स्ट्रीट,			
		विले पारले (वेस्ट)					मुंबई 400 002			
		मुंबई 400 056								
361	114522	श्री आशीश जसवतीलाल शाह	एसीए	16.03.04	370	115042	श्री अशीश मोरेश्वर मराठे	एसीए	01.11.03	
		8 समीन अपार्टमेंट,					स्थापन सीरकेम,			
		कस्तुर पार्क,					टी वी आई एम,			
		सिम्पोली रोड,					गोवा 400 002			
		मुंबई 400 092								
362	114536	मिस लक्ष्मी चंद्रशेखरन अय्यर	एसीए	01.04.03	371	115089	श्री वरुण कुमार प्रकाश	एसीए	23.03.04	
		फ्लैट नं. 9, दूसरा तल,					चंद्रा कोठारी			
		करुणालया, तेली गली,					ए/104 शीतल नगर नं. 4,			
		अंधेरी (ईस्ट),					अगासी रोड, वीरार वेस्ट			
		मुंबई 400 069					वीरार 401303			
363	114575	श्री सचिन आनंदराव टोटाडे	एसीए	18.02.04	372	115101	मिस चैत्राली अनिल गोवाईकर	एसीए	19.01.04	
		715, न्यू सुबेदार ले आउट					34/10, बिलवाडल,			
		नागाधुर 440 024					इरानडवाने, प्रभात रोड लेन 8,			
							पुणे 411 004			

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
373	115452	श्री विरल योगेश गांधी 139/3779 उषा किरण, वी बी लेन एक्स, पंत नगर, घाटकोपर मुंबई 400 075	एसीए 20.02.04	382	115997	श्री सोमिल अरूण गाबा ए-501, सुरज दर्शन आपार्टमेंट, शांति अश्रम, बोरीवली (वेस्ट) मुंबई 400 103	एसीए 24.03.04
374	115491	श्री जयदेव अरविंद अकशन सरसवथी नायर, वैशाली सोसाइटी राजाजी पथ बंगला नं. 12, चौथा क्रॉस रोड, जिला घाने, डोम्बीवली 421201	एसीए 24.02.04	383	116112	श्री श्याम कुमार मदनलाल कमला अग्रवाल, बी 807 भूमि बिल्डिंग, ओम नगर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400 069	एसीए 05.12.03
375	115607	श्री मुकेश कुमार मनोहरमल कोचर, मैसर्स उमेदमल प्रेमराज 134/40 केवल स्ट्रीट मुंबई-400 002	एसीए 01.12.03	384	116114	श्री सुमित परसोतम नीता हिन्दूजा लेंयादरी को ओ सोसाइटी, ई/503, प्लॉट नं. 8 और 9, सेक्टर 19ए नेरूल, नवी, मुंबई 400 706	एसीए 18.11.03
376	115610	श्री शुभानन ब्रिजेन्द्रा कुमार गिरी 404 ए/5, गुरुकृपा क्रॉस लेन 2, लोखंडवाला कम्पलेक्स, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई 400 053	एसीए 17.11.03	385	116155	श्री अमित किशोर राठोड, ए/2, गोपाल भुवन, एस वी रोड, नियर देना बैंक, मुंबई 400 067	एसीए 01.01.04
377	115745	श्री नवल किशोर द्वारका प्रसाद लड्डा, 701/ए, राशमी प्लेस, शांति आश्रम के पीछे, देवकी नगर, बोरीवली (वे.) मुंबई 400 103	एसीए 15.03.04	386	116252	मिस प्राजक्ता वासुदेयो अल्का गद्रे, 1 जयश्री रालम, रामनगर, शिवमंदिर रोड, राम नगर, डॉ.बीवली (ई)-421201	एसीए 22.02.04
378	115748	श्री फरीद अहमद अब्दुलरज्जाक नागडावाला 132 मोरेश्वर पाटनकर मार्ग, फ्लैट नं. 108, शेख हनीफ नूर मो. बिल्डिंग, प्रथम तल, पाइप रोड, कुरला (वेस्ट), मुंबई	एसीए 12.01.04	387	116449	मिस मानासी सदानंद सपरे बी/16, रश्मी बिल्डिंग, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई-400 058	एसीए 10.02.04
379	115789	श्री मनोज सैनाराम सोलंकी पुखराज, प्लॉट नं. 175, इन्द्राप्रस्था हाउसिंग सोसाइटी नियर आकाशवाणी, हडापसर, पुणे 411 028	एसीए 09.03.04	388	116773	श्री पियूष महेश लोहा, वास्ते मि. सुधीर बहेती, एस 4 उत्क्रास अनुराग, अग्रसेन रोड, नागपुर 440 010	एसीए 18.03.04
380	115794	श्री निलेश जसवंतभाई ठक्कर 8 कामधेनु सोसाइटी, नियर पीटी कॉलेज, पालडी, अहमदबाद 380 007	एसीए 02.01.04	389	203016	श्री गणापथी कामथ एम दुकान नं. 22, केटी नगर, फेस 1, वसाई रोड, वेस्ट, जिला घाने, 3 वसाई-401202	एफसीए 20.05.03
381	115848	श्री पुनीत भारत अजानी 42/ए-7, जेवरी बिल्डिंग, ओल्ड नागरदास रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई 400 069	एसीए 29.12.03	390	205251	श्री जुगल किशोर साहू बिल्डिंग नं. बी 25, फ्लैट 601 अभिषेक अपार्टमेंट, शांति पार्क, मीरा रोड (ईस्ट) मीरा रोड 401 107	एसीए 12.12.02

क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	एन. नं.	व पता
391	206791	श्री पावसकर विवेकानंद वेंकटरमन, मकान नं. 552, डोनग्रीम, नेवेलीम मारगाव गोवा 403 707	एसीए	27.08.03
392	208938	श्रीमती लथा प्रभु, फ्लैट नं. 109/110 बिल्डिंग 5 न्यू महा कालोनी, प्रतीष नगर सवाईन ईस्ट, मुंबई-400022	एसीए	31.12.03

क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	एन. नं.	व पता
393	400730	श्री अटल विनांद कुमार ई 302, शंकरेश्वर नगर सोसाइटी, अशोक वैन, दहीसार ईस्ट, मुंबई 400 068	एसीए	26.09.03
394	400798	श्री कबरा सतीश कुमार पाइनोर इम्बोडरीज लि. हडोबा कम्पाउंड, डब्ल्यू ई हाईवे, बोरीवली (ईस्ट), मुंबई 400 066	एसीए	22.02.03

अशोक हल्लिया  
डॉ. अशोक हल्लिया  
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA  
Mumbai, the 1st March 2005

No. DBOD. No. IBS. 1186/23.13.018/2004-05.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :

"Sumitomo Mitsui Banking Corporation".

USHA THORAT  
Executive Director

(DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS)

CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 2nd March 2005

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended January 2005 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised :—

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Byculla (Mumbai) Circle 10% Relief Bond 1995					
BC-17181 (GPH)	Rs. 2,25,000/-	Aditi Sudhir Gharat Geeta Sudhir Gharat and Sudhir Y. Gharat	22.12.1998	Aditi Sudhir Gharat Geeta Sudhir Gharat and Sudhir Y. Gharat	<del>06.25.86</del> 13.3.2004
Kolkata Circle 3 ½% National Plan Bond 1965					
CA 002391	Rs. 10,000/-	Sri Suresh Chandra Mukherjee (deceased)	upto 31.12.64 (19th) Half-year interest paid	Swapanesh Mukherjee	File No. I-2560 GM's Order dated 27.1.2005 (DY. No. LCO 121/04-05 dated 03.02.2005)
CA 002392	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002393	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002394	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002395	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002396	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002397	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002398	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002399	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
CA 002400	Rs. 10,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

List "B"

"NIL"

J. M. BAWA  
Asstt. Manager

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th February 2005

No. N-15/13/16/1/2004-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 15th February, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :

"Revenue village Jahari in District of Sonapat."

R. C. SHARMA  
Jt. Director (P&D)

No. N-15/13/16/2/2004-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :

"Revenue village Mehrana in District of Panipat."

R. C. SHARMA  
Jt. Director (P&D)

No. N-15/13/16/2/98-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 15th February, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :

Sl. No.	Name of the Revenue Village	HadBast No.	District
1.	Kherki Daula	161	Gurgaon
2.	Sihi	108	Gurgaon
3.	Sikandarpur	109	Gurgaon
4.	Sikhopur (including Rampura)	160	Gurgaon
5.	Navrang Paur	157	Gurgaon
6.	Manesar	154	Gurgaon
7.	Nahar Pur Kasan	111	Gurgaon
8.	Fatehpur Nawada	112	Gurgaon
9.	Binola	147	Gurgaon
10.	Nakhrola	110	Gurgaon
11.	Kasan	129	Gurgaon

R. C. SHARMA  
Jt. Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 18th January 2005

No. CPFC 1(4)10/05/DL/GJ/NZ.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name of Estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1.	DL/28047	M/s. Reri School of Advanced Studies	21.09.04	21.09.04
2.	DL/28126	M/s. Northern India Textiles Mills Association	09.10.03	09.10.03
3.	DL/27833	M/s. National Centre for Electronic Switching	18.08.03	18.08.03
4.	DL/24045	M/s. India Broadcasting Foundation	16.11.00	16.11.00
5.	DL/26138	M/s. Commercial Office of Chile in India	17.09.02	17.09.02
6.	DL/25085	M/s. Human Reproduction Research Centre	02.08.04	02.08.04
7.	DL/26823	M/s. Pace Express Travels & Cargo (P) Ltd.	20.02.03	20.02.03
8.	GJ/50556	M/s. Vitthal Udyognagar Industries Association	12.04.04	12.04.04
9.	GJ/50605	M/s. Shaishav Trust	05.10.04	05.10.04
10.	GJ/29846	M/s. Chanasma Commercial Co-op.	27.02.03	27.02.03

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

Dr. A. K. CHANDOK  
Regional P. F. Commissioner (C)

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Mumbai-400 005, the 8th February 2005

3WCA(8)/1/2003-04 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
1	002949	Mr. CHITALE PRABHAKAR PURUSHOTTAM 118/6, "SAMADHAN" ROAD NO. 24A, SION (WEST) MUMBAI-400022	FCA 02/11/2003	14	010532	Mr. PATEL JAYANTILAL MOHANLAL JAY & JAY, 6, JAIHIND SOC, N S RD NO 12A, J V P D SCHEME JUHU, MUMBAI-400049	FCA 01/04/2003
2	003482	Mr. MERCHANT RAMZANALI FAKIRMOHAMED 15, DONTAD CROSS LANE, TOP FLOOR, MUMBAI-400009	FCA 01/04/2003	15	011316	Mr. PRAKASH NAGARDAS SHAH 32 BHAGWAN BHUVAN, 196 SAMUEL ST, MUMBAI-400009	FCA 20/10/2003
3	003872	Mr. KULHALLI SUBBAJI NARASHINRAO 16, INDIRA, NAGALA PARK, KOLHAPUR-416003	FCA 23/09/2003	16	011609	Mr. KUMARASWAMY G FLAT NO.7, PLOT NO.304, NALINI, SION-TROMBAY ROAD, CHEMBUR AS. MUMBAI-400071	ACA 23/09/2003
4	004571	Mr. DESAI YEZDI PESHOTAN MINO MEHER, 22 UNION PARK, KHAR MUMBAI-400052	ACA 27/05/2003	17	013222	Mr. GEORGE VELLATHOTTAM MATHEW 403 BLUE DIAMOND RESIDENCE, FATEHGANJ, VADODARA-390002	ACA 10/06/2003
5	005019	Mr. SHARADCHANDRA THAKORLAL PATEL 39, RATAN ABAD, TUKARAM JAVJI ROAD, GRANT ROAD WEST MUMBAI-400007	FCA 01/04/2003	18	014208	Mr. MURALI MOHAN S FLAT NO 302, CHALLENGER TOWER, 1 THAKUR VILLAGE, KANDIVLI EAST MUMBAI-400101	FCA 01/04/2003
6	005167	Mr. FUZDAR BHUPENDRAKUMAR RANCHHODAS HARI KRIPA FLAT NO. 27, " FIFTH FLOOR, 26-A S V RD SANTACRUZ-WEST MUMBAI-400054	ACA 31/03/2003	19	014384	Mr. GANDHI SURESH 1102 MANJU APARTMENTS, NARAYAN DHABOLKAR ROAD, MUMBAI-400006	FCA 01/02/2003
7	006005	Mr. DAVAR ARDESHIR RUSTOM ROST & KITCHENFR. LEVEL 3 131 CLARENCE STREET, SYDNEY NSW-2000 AUSTRALIA	FCA 05/11/2003	20	015286	Mr. MOHANLAL S PARMAR UNIT NO 218 HIND RAJASTHAN BLDG 2ND FLOOR, 95 DADA SAHEB PHALKE ROAD DADAR EAST MUMBAI-400014	FCA 31/03/2003
8	006404	Mr. AVARI BAJI HOMI MACKAWEE MANSION III FLOOR, BLOCK B, 7 RUSTOM SIDHWA MARG GUNBOY STREET, FORT MUMBAI-400001	FCA 18/12/2003	21	030864	Mr. BHATRI KHOZEIM SAMOON 703, EZZY APARTMENTS, SHANTIPATH MARG, OFF SHIVDAS CHAPS, MAZGAON ROAD, MAZGAON MUMBAI-400010	ACA 01/04/2003
9	007760	Mr. SHAH AJITKUMAR JESHINGBHAI THREE BUNGLOWS, NEAR U CO BANK, TOLAK NAGAR, PALDI, AHMEDABAD-380007	FCA 28/02/2004	22	031135	Mr. SOMANI SURENDRAKUMAR NATHMAL D-9/10 CENTURY STAFF QUARTERS, NR T.V. CENTRE PANDURANG BUDHIKAR MARG WORLI, MUMBAI-400025	ACA 01/01/2004
10	008203	Mr. KHAMBATA RUSTOM KAIKUSHROO, J "WINDSOR HOUSE" FLAT 12 (4TH FLOOR), 138 M KARVE ROAD, MUMBAI-400020	FCA 31/03/2003	23	031320	Mr. KAMAT UDAY KRISHNA 23/3 SAHAJEEVAN, GOKHALE ROAD, CROSS ROAD NO 2, DADAR MUMBAI-400028	ACA 12/08/2003
11	008287	Mr. TAMBOOWALLA MERWAN EDULJI 51 MEHER DAD, CUFFE PARADE, COLABA MUMBAI-400005	FCA 31/03/2003	24	031543	Mr. MALUSTE RAGHUNANDAN DATTATRAY 6A, IL PALAZZO, LITTLE GIBBS ROAD, MUMBAI-400006	FCA 01/04/2003
12	010023	Mr. AGARWAL SATYA PRAKASH SAGAR VILLA, 38, WARDEN RD MUMBAI-400026	FCA 03/02/2004	25	031788	Mr. DILIP KUMAR GHOSE C/932/1863, KURLA CAMP, ULHASNAGAR-421005	ACA 20/11/2003
13	010168	Mr. BALASUBRAMANIAN K 57-B/11, BRINDABAN SOCIETY, THANE - WEST THANE-400601	ACA 27/01/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
26	032325	Mr. TAHILRAMANII JAGDISH HARI FLAT NO 5 SANDESH BLDG, 28TH ROAD, BANDRA WEST MUMBAI-400050	ACA 16/08/2003	39	035345	Mr. MAROO SHASHANK ARVIND S A MAROO & CO, 2/59, SAI SUMAN, J P ROAD, NEAR APANA BAZAR, ANDHERI (WEST), MUMBAI-400053	FCA 01/04/2003
27	032397	Mr. SHETH ROHIT HARKRISHNANDAS 207, VIRESHWAR CHAMBERS, M G RD, VILE PARLE- EAST, MUMBAI-400057	FCA 25/02/2004	40	035352	Mr. HARIHARAN SUNDER A-3, 302, 1 OK UPAVAN, POKHRAN II, THANE-400601	ACA 18/08/2003
28	033097	Mr. JIWRAJKA KAMAL RADHESHYAM P T JAYKAY FILES INDONESIA, JALAN SUKODONA, GEDANGAN, TROMOL POS 33, SIDOARJO EAST JAVA, SURABAYA-400606 INDONESIA	FCA 01/04/2003	41	035724	Mr. RAJENDRA KUMAR MUTHA 3/11/10 NAVJIVAN SOCIETY, LAMINGTON ROAD, MUMBAI-400008	FCA 13/05/2003
29	033140	Mr. PATEL HARSHAD NAVNITBHAI FLAT NO. 42, 4TH FLOOR, BUILDING NO 12-A, BRINDABAN SOCIETY, THANE WEST THANE-400601	FCA 09/09/2003	42	036443	Mr. VASAVADA NITINKUMAR HARVINDRAI 82 VASTUNIRMAN PLOT NO 636 SECTOR, 22 GANDHINAGAR, GANDHINAGAR-380022	FCA 01/04/2003
30	033308	Mr. MEHTA SATISH GORDHAN MD, CREDIT INFORMATION (I) LTD, HOECHST HOUSE, 6TH FLOOR, 193 BACKBAY RECLAMATION, MUMBAI-400021	FCA 31/03/2003	43	035734	Mr. AGARWAL RAM HANSRAJ 'BIPIN' ROW HOUSE NO.4, PHASE 'V' PRITHVI BRAHMAND, CO-OP HSG SOCIETY, AZAD NAGAR, THANE (WEST), THANE-400607	ACA 02/09/2003
31	033643	Mr. PATEL MAYANK DINKARBHAI PRASANNA HOUSE, ASSOCIATED SCTY, OPP RADHA KRISHNA PARK, NEAR AKOTA STADIUM, VADODARA-390020	FCA 01/04/2003	44	036922	Mr. SRIRAMASUBRAMANIAN VAIDYANATHA 7 OLD VIMAL VIHAR, VALJI LADHA RD, MULUND (W) MUMBAI-400080	FCA 01/11/2003
32	034168	Mr. PRASHANT SHRIDHAR DESHPANDE C/O PRICEWATERHOUSE COOPERS(P) LTD, TRADE WORLD 8TH FLOOR C-WING, KAMLA MILLS COMPOUND, SENAPATI BAPAT MARG LOWER PAREL, MUMBAI-400013	ACA 11/11/2003	45	038058	Mr. PALEKAR SHREESH MORESHWAR 28/108 BRINDABAN, OFF MAHAKALI CAVES ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI-400093	FCA 17/11/2003
33	034926	Mr. SARUPARIA PRAKASH CHANDRA NL-6-7-5 1ST FLOOR, SECTOR- 15, NERUL NAVI MUMBAI-400706	FCA 31/03/2002	46	038134	Mr. VITHLANI PANKAJ RASIKLAL 12-74 TAPSCOTT ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO CANADA M1B 5P1, CANADA-0 CANADA	FCA 01/04/2003
34	034978	Mr. KELKAR VINAY NARAYAN 601, 'A' WING, PRESTIGE PARK, GANESHWADI, PANCHPAKHADI, BEHIND NITIN CASTINGS LTD. THANE-400601	ACA 15/09/2003	47	038155	Mr. SHAH ARVINDKUMAR RAVJI 404, HIND RAJASTHAN BUILDING, 95, DADASAHEB PHALKE ROAD, DADAR (C.R.) MUMBAI-400014	FCA 24/07/2003
35	034988	SHRI DALAL JAYESH NAVNITLAL 41 POOJAN, JAIHIND CHS N S ROAD NO.11 JUHU SCHEME, VILE-PARLE WEST, MUMBAI-400049	FCA 18/12/2003	48	038249	Mr. MISTRY MUKESH AMRATLAL C-55 TOPIWALA BLDG OPP TOPIWAL, THEATRE GOREGOAN, MUMBAI-400062	ACA 20/05/2003
36	035221	Mr. LAXMINARAYAN C H DIRECTOR, MONTANA EXPORTS PVT. LTD., 98 JOLLY MAKER CHAMBERS NO. 2 NARIMAN POINT, MUMBAI-400021	ACA 25/02/2004	49	038278	Mr. SARAF VIJAYKUMAR HARIPRASAD 902, FALCON CREST, NEW LINK ROAD, BOIRVALI (WEST) MUMBAI-400091	FCA 19/01/2004
37	035226	Mr. HEGDE SANJAY KRISHNA 602, JUHU SAI DARSHAN CO.OP. HSG. SOCIETY, 10TH BUILDING, 5TH N.S.EXT.RD, J V P D SCHEME MUMBAI-400049	FCA 06/06/2003	50	038581	Mr. EDIBAM PERCY HOMI M 3/34 MERWANJEE CAMA PARK CAMA RD, ANDHERI WEST, MUMBAI-400058	ACA 23/01/2004
38	035248	Mr. SHAH NARESH JAYANTILAL N J SHAH & ASSO HIRAKUNJ, 29 V FLOOR SANE GURUJI RD, TARDEO MUMBAI-400034	FCA 31/03/2003	51	038603	Mr. SAMPAT BHARAT LAXMIDAS 398 D KALBADEVI RD, 93 IV FLOOR ABOVE KHADI BHANDAR, MUMBAI-400002	ACA 05/02/2004
				52	038730	Mr. DOLPHY JOHN D'SOUZA 1002 RUSHABHTOWER, JAKARIA BUNDER CROSS RD, SEWRI WEST, BEHIND BALMER LAWRIE FACTORY, MUMBAI-400015	FCA 23/05/2003
				53	039170	Mr. TANNA BIMAL MANU 403, VIKRAM, 19/29, JANKI KUTIR, JUHU, MUMBAI-400049	FCA 05/06/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
54	039221	Mr. LAKHICHAND KAPURCHAND PARAKH R NO 17 2ND FLOOR, 170/72 KIKI STREET, MUMBAI-400004	FCA 15/10/2003	69	041394	Mr. VAIDYA NITIN MARTAND 24/95 YESHWANT NAGAR, S V ROAD GOREGAON-W- MUMBAI-400062	ACA 02/09/2003
55	039325	Mr. SHAH MAYUR VASANTBHAI 26/27, MAHAVIR KRUPA, 2ND FLOOR, VALLABH BAUG LANE-EXTN, GHATKOPAR-EAST, MUMBAI-400077	FCA 21/09/2003	70	041538	Mr. MAKARAND SHRIDHAR GHONGE PLOT NO 13, DEO NAGAR, KHAMLA ROAD NAGPUR-440015	FCA 07/01/2004
56	039354	Ms. NICOLETTE REBELLO VIRENDRA G-3, B.J. ROAD, BANDRA MUMBAI-400050	ACA 29/07/2003	71	041581	Ms. LODARIA VINITA JAYESH VINITA SERRAO & CO 405 JAMUNA, APTS S OPP AMBAR OSCAR CINEMA, V RD ANDHERI WEST, MUMBAI-400058	FCA 31/12/2003
57	039505	Mr. JATANIA CHETAN YASHWANTRAI C.Y. JATANIA & CO., B-13 CHANDRAKIRAN SOC., OPP N.L. HIGH SCHOOL, S.V. RD., MALAD-W MUMBAI-400064	FCA 01/04/2003	72	041667	Mr. PRAMOD DATTARAM RASAM SHRI NIWAS CHAWL, J B NAGAR, MUMBAI-400059	FCA 31/03/2003
58	039672	Mr. BHATIA SAMIR VIJAY 202 PHOENIX HOUSE, 91 SAYANI ROAD, PRABHADEVI, MUMBAI-400025	ACA 04/09/2003	73	041892	Ms. ALPANA VIDYADHAR DESHPANDE 10/42, SANGAM, LOKHANDWALA COMPLEX, MUMBAI-400102	ACA 24/03/2004
59	039930	Mr. MEHRA GAUTAM MOHINDERKUMAR 15/3 SHETRUNJAY, VRINDAVAN SOCIETY, N S MANKIKAR MARG, SION, MUMBAI-400022	FCA 01/09/2003	74	041893	Mr. PARAG ANANTRAI VYAS 12 BEST VIEW, RAGHAVJI ROAD, GOWALIA TANK MUMBAI-400036	FCA 03/12/2003
60	039937	Mr. SHAH GALA MAHENDRA HIRJI 12, DIPTIDHAM, NAHUR VILLAGE ROAD, MULUND (WEST), MUMBAI-400080	FCA 31/07/2003	75	041954	Mr. ENGINEER BURZIN ASPI R-11 CUSROW BAUG, SHAHID BHAGAT SINGH RD, ELECTRIC HOUSE, COLABA, MUMBAI-400001	ACA 31/03/2003
61	040104	Mr. SHAH JAYESH KALYANBHAI U-G-3 PUNYABHUMI SHOPPING CENTRE, DARFAN CHAR RAS A, ST XAVIERS SCHOOL ROAD, AHMEDABAD-380013	FCA 28/03/2003	76	042016	Mr. PAI MANJUNATH RADHAKRISHNA 701 BLDG 21 GULMOHAR SOC, OSHIWARA, ANDHERI (W), MUMBAI-400053	ACA 28/07/2003
62	040122	Mr. SOOMANEY RAJU JASHANLAL 104-CLIFF TOWER, 3RD CROSS LANE, LOKHANDWALA COMPLEX, ANDHERI(W), MUMBAI-400053	FCA 16/07/2003	77	042928	Mr. BAPNA PRAKASH CHANDAR 563 & 565/565, SHRAJ PRASAD BLDG, NEW MILL ROAD, KURLA (W), MUMBAI-400070	ACA 08/10/2003
63	040165	Ms. PADMA DEEPAK KAPSE D 802 TAWADE COMPLEX, LOKMANYA TILAK ROAD, DAHISAR (W), MUMBAI-400068	ACA 19/03/2004	78	043002	Mr. BOKIL RAJENDRA BALWANT C/O G P ELECTRONIC CO LTD, B-87, ADDL INDUSTRIAL AREA, AMBAD, NASHIK-422010	FCA 31/03/2003
64	040480	Mr. GORE MANOJ ARVIND 773/6A, ISH-KHIPA4, SHIVAJI NAGAR, NEAR KAMALA NEHRU PARK, PUNE-411004	ACA 18/02/2004	79	044138	Mr. SURVE SANJAY SHANKAR 4, MARLESHWAR SOCIETY, KOKAN NAGAR, BHANDUP, MUMBAI-400078	FCA 31/12/2003
65	040767	Mr. LODARIA JAYESH MUGATLAL 405 JAMUNA APTS, OPP AMBAR OSCAR CINEMA S V RD, ANDHERI-W- MUMBAI-400058	FCA 31/12/2003	80	044395	Mr. GUPTA RAKESH SHAMBHU DAYAL 22, BOMBAY SAMACHAR MARG, 2ND FLOOR., FORT, MUMBAI-400023	FCA 18/07/2003
66	040841	Mr. SUNEEL VASANT ARADHYE LANE NO 3, 388, MAHATMA SOCIETY, KOTHRUD, PUNE-411029	FCA 28/08/2003	81	044437	Mr. KHONA RAJESH RAYCHAND C-44/N-8, AMAR JYOTI CO OP HSG SOCIETY, MAHATMA GANDHI HSG COMPLEX SECTOR 14, JUHU NAGAR, VASHI NAVI MUMBAI-400703	ACA 01/04/2003
67	040850	Mr. BHATIA VIRENDRA ATMARAM POST BOX 43623, U A E, DUBAI-0, U.A.E.	FCA 19/07/2002	82	044733	Mr. VADODARIA DINESH RAMNIKLAL 217, BHAVESHWAR ARCADE, L B S MARG, OPP SHREYAS CINEMA, GHATKOPAR-WEST, MUMBAI-400086	FCA 23/02/2004
68	041062	Ms. SAVLA DIPTI JAIDEEP 13 LABURNUM ROAD SETHNA HOUSE, 3RD FLOOR, GAMDEVI, MUMBAI-400007	FCA 31/03/2003	83	044761	Mr. CHAUHAN ATULKUMAR GOVINDBHAI C/12, GHANSHYAM NAGAR -2, GIDC ROAD , MANJALPUR VADODARA-390011	ACA 17/03/2004



S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
84	044852	Mr. SANJAY BHANDARI C 51 PADAM NAGAR, OLD MOHAN STUDIO, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400069	ACA 06/10/2003	98	047689	Mr. PADHYA HIREN BACHUBHAI 4 VAIDHYA DUNGLOW, OPP. SHANTABA PARK, NANA BAZAR VALLABH VIDYANAGAR-388120	ACA 26/06/2003
85	045022	Ms. SONI JAY THAKKER 18-C/305 BHOJ MAHAL (C WING), 3RD FLOOR SHIVPURI COLONY, S.T.ROAD CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 15/03/2004	99	047910	Mr. PRASHANT NAVNITLAL SHAH 3F/13-14, MAJITHIA NAGAR, BLDG. 3 F WING, 3 FLOOR, S.V. ROAD, KANDIVALI (W) MUMBAI-400067	ACA 23/03/2004
86	045398	Mr. RAJDE PARESHKUMAR JAMNADAS 305/B, LAXMI SHOPPING CENTRE, HIRACHAND DESAI ROAD, GHATKOPAR (WEST), MUMBAI-400066	FCA 31/12/2003	100	047961	Mr. UMRAJKAR VINIT GOVIND C-23, MANALI ARCADE, PUNE SATARA ROAD, OPP ASHWAMEGH AUTO LTD PUNE-411009	ACA 08/07/2003
87	045568	Mr. BHAYANI RAKESH KISHOR 2A VAIBHAV, A-WING, 2ND FLOOR, 140 S V RD OPP IRLA NURSING HOME IRLA, VILE PARLE - WEST, MUMBAI-400056	FCA 22/03/2004	101	048076	Mr. BUCH CHIRAG SURESH 2A, SHATRUNJAY, LALLUBAI PARK, ANDHERI WEST MUMBAI-400058	ACA 01/04/2003
88	045593	Mr. RATHORE KAMLESH KUMAR P O BOX NO 36, POSTAL CODE 124, RUSAYL-0, SULTANATE OF OMAN	ACA 31/12/2003	102	048160	Mr. CHANDAK SATISH RATANLAL 19, ZAGE LAYOUT, BHARATNAGAR, NAGPUR-440001	ACA 08/07/2003
89	045732	Mr. D'SOUZA GILBERT ALBERT 302 SAMEER, IC COLONY ROAD IC COLONY, BORIVLI(W) MUMBAI-400103	ACA 09/12/2003	103	048433	Mr. AMIL DAMODAR PRABHU C-56 GOKUL NAGAR CHS LTD, 3PD FLOOR AMBIKA NAGAR, GOGRASSWADI, DOMBIVLI(E) THANE-421201	ACA 18/08/2003
90	045896	Mr. ZANDBAF BEHRAM RASHID TATA MILLS COOP HOUSING, SOC LTD 3/28, 6TH FLR, ELPHINSTONE ROAD, PAREL MUMBAI-400012	FCA 17/11/2003	104	048603	Mr. SANDIP SOLE 7-A, NEHA APARTMENTS, R.C.DUTT ROAD, ALKAPURI, VADODARA-390005	ACA 24/05/2003
91	046086	Mr. UTAMSINGH VIKRAM KPMG HOUSE, KAMALA MILLS COMPOUND, 448, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL MUMBAI-400013	ACA 30/10/2003	105	048626	Mr. SHANKAR G RAMAKRISHNAN 82A/22, GOPI KSSNA SOCIETY, BRINDABAN COMPLEX, THANE (W) THANE-400601	ACA 08/01/2004
92	046132	Mr. JADIA HEMANT GHANSHYAMLAL ROOM NO 7, 227-F, KALBADEVI ROAD, MUMBAI-400002	ACA 19/12/2003	106	048630	Ms. MENTA TEJAL SANAT 82/F1, MRIDUL PARK FLATS, GULBAI TEKRA, POLYTECHNIC ROAD, AHMEDABAD-380015	ACA 01/04/2003
93	046370	Ms. PAREKH VARSHA JAYANTILAL C/O KOMAL VILLA #58, SUKHUMIT ROAD, BANGKOK-10110 THAILAND	FCA 01/01/2004	107	048847	Ms. MULTANI NEETA BHAGWANDAS 32/B, NAVYUG MANSION, SLEATER ROAD, MUMBAI-400007	FCA 22/12/2003
94	046400	Mr. TIKOTKAR HARISH NARAYAN A-5 SAUDAMINI SOCIETY 1, S NO 101 /18 BHUSARI COLONY, PAUD ROAD, KOTHRUD PUNE-411038	ACA 01/02/2004	108	048892	Ms. SADARANGANI PREETI LAKHMICHAND A-1 JEEVAN JAGRITI CHS, 57 DR AMBEDKAR ROAD, PALI HILL BANDRA (WEST) MUMBAI-400050	ACA 28/06/2002
95	046588	Mr. RAVAL KAMALESH JAYANTILAL 39, SARVODAY NAGAR-3, NEAR K K NAGAR, GHATLODIA, AHMEDABAD-380061	ACA 01/04/2003	109	048951	Mr. SHAH JIHESH DHANWANTBHAI 29/1/22 B A KHIMJI MARG, MATUNGA (C RLY), MUMBAI-400019	ACA 29/01/2004
96	047275	Mr. SAHANE MATHEW A-1/1202, VIKAS COMPLEX, CASTLE MILL COMPOUND, L B S RD, THANE-400601	ACA 28/12/2003	110	048967	Mr. BHIMANI KETAN DINESHKUMAR BLDG NO D 22/001, SECTOR 7, SHANTI NAGAR, MIRA ROAD-401107	ACA 01/08/2003
97	047433	Mr. PRESSWALA ZUZER ESMAIL C/O DHAFAR INSURANCE CO SAOG, P O BOX 1002, POSTAL CODE 112 RUWI MUSCAT-0 SULTANATE OF OMAN	ACA 25/07/2002	111	048982	Mr. DEVENDRA RANDHIR SINGH B M CHATURVEDI & CO, 32 JOLLY MAKER CHAMBERS-II, NARIMAN POINT, MUMBAI-400021	FCA 01/04/2003
				112	049024	Mr. GAJJAR ASHISHKUMAR NATWARLAL 202 RUSHIKESH APARTMENTS, NR STHANAKVASI JAIN VADI, KALOL-382721	ACA 01/04/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
113	049067	Ms. PANTHAKI TEENA HOMI 8, RAJ MAHAL, 84, VEER NARIMAN ROAD, MUMBAI-400020	ACA 24/03/2004	128	059622	Mr. MOHAPATRA SANJEE KUMAR POST BOX NO 32440, KINGDOM OF BAHRAIN, BAHRAIN-0 UAE	ACA 05/03/2001
114	049107	Mr. SHAH KASHYAPKUMAR MAFATLAL 2 PATEL APARTMENTS, CHINTABHAI PATEL ROAD, KANDIVALI (EAST) MUMBAI-400101	ACA 01/04/2003	129	061202	Mr. BHAKAT AMAR NATH C/O SHREE DIGVIJAY CEMENT CO LTD., UNIT MANAGEMENT AUDIT DIVISION, P O: DIGVIJAYGRAM, GUJARAT, JAMNAGAR-361140	ACA 02/05/2003
115	049279	Mr. APTE YOGESH YESHWANT 8-B CADEL PLAZA, VEER SAVARI AR MARG, DADAR MUMBAI-400008	FCA 21/11/2003	130	070695	Mr. SINGHAL ANAND KRISHAN 203-MAITRI RESIDENCY-1, NEAR KAMLA VIHAR, MAHAVEER NAGAR, KANDIVALI (W) MUMBAI-400067	FCA 01/04/2003
116	049678	Mrs. RUPA MILIND CHITRE 102, SMRUTI APARTMENTS, BAJI PRABHU DESHPANDE ROAD, VISHNU NAGAR, THANE - WEST, THANE-400602	ACA 06/11/2003	131	071707	Mr. SRIVASTAVA VISHWA NATH DY GENERAL MANAGER-ACCOUNTS, MS/ LARSEN & TOUBRO LTD, AWARPUR CEMENT WORKS, DIST CHANDRAPUR, CHANDRAPUR-442917	FCA 18/01/2003
117	049809	Mr. SACHIN YESHWANT MARDIKAR 8-7, VRINDAVAN APTS., BHARAT NAGAR, AMRAVATI RD., NAGPUR-440001	FCA 19/09/2003	132	072064	Mr. AJAYA JAIN A/4 SAI AARADHANA, SWAGATAM COMPLEX, JESAL PARK BHAYANDAR-EAST BHAYANDAR-401105	FCA 05/09/2003
118	050351	Mr. CHAKRABORTI HIRAK SUBHRA THE TIMES OF INDIA, FADIA CHAMBERS, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009	FCA 01/04/2003	133	073425	Mr. BHANDARI BALVEER RAJ A-18/23 BROADWAY AVENUE, SHANTI PARK, MIRA ROAD (EAST) DIST: THANE MIRA ROAD-401107	ACA 31/12/2003
119	050628	Mr. SAMIR KUMAR SAHA FLAT NO 603-A, MERMAID HSG SOCIETY, SECTOR-11, C B D BELAPUR, NAVI MUMBAI-400614	FCA 05/03/2004	134	073519	Mr. KAPIL KUMAR A-11 STHAPATYA APARTMENT, NEAR STERLING HOSPITAL, AGRASEN SCHOOL ROAD, GURUKUL MEMNAGAR, AHMEDABAD-395052	FCA 01/04/2003
120	053603	Mr. UPADHYAY JAYKAR FLAT NO 11, GANESH, POOJA PARK 579 PAUD ROAD, KOTHRUD, PUNE-411020	ACA 26/09/2003	135	073640	Mr. KOCHER MAHIPAL FLAT NO 101, SATYAM SAGAR, DIP NAGAR DAMAN-396210	ACA 04/02/2004
121	053721	Ms. VASANTHI RAMKUMAR 6/304, NALINI, SION TROMBAY ROAD, CHEMBUR, MUMBAI-400071	FCA 31/03/2003	136	074405	Mr. JAIN DINESH A-202 MUKTANGAN, UPPER GOVIND NAGAR, KAILESH PURI ROAD, MALAD (EAST), MUMBAI-400097	FCA 01/02/2003
122	056684	Mr. MANOJ KUMAR AGARWAL J-3 PURBACHAL, CLUSTER-2, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700091	FCA 01/09/2003	137	075515	Mr. SHROFF RAJESH ADANI WILMAR LIMITED, 10TH FLOOR SHIKHAR, NEAR MITHAKHALI CIRCLE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009	FCA 01/04/2003
123	057733	Mr. DASGUPTA PRARINDHA SAHARA HOSPITALITY LTD., FORMERLY CENTAUR HOTEL, MUMBAI AIRPORT, MUMBAI-400099,	ACA 16/09/2002	138	076507	Mr. SAKSENA HARSHA BUILDING NO 2 FLAT NO 702, GARDEN ESTATE, SMT GLADYIS ALWARIS ROAD, THANE WEST, THANE-400601	ACA 30/08/2003
124	058196	Mr. KRISHNA KANODIA C/O MR RAMESH BHOTIKA VISHWA MAHAL, 'C' ROAD, CHURCHGATE MUMBAI-400020	ACA 24/06/2003	139	076659	Mr. HEMENDRA PALIWAL G 702 MARIGOLD, VALLEY OF FLOWERS, THAKUR VILLAGE, KANDIVALI (E) MUMBAI-400101	ACA 01/07/2003
125	058445	Mr. CHATTERJEE DEBJIT 8 RAI SAHEB DN MUKHERJEE ROAD, BALLY HOWRAH-711201	ACA 11/11/2003	140	078111	Mr. MEHTA PRANAY B-10/701 INDRALOK COMPLEX, OPP LAKE VIEW HOTEL, SURAT DUMAS ROAD, PIPLOD SURAT-395007	ACA 11/03/2003
126	059085	Mrs. JAEITA MUKHERJEE C/O MR S K DAS, RA-69 COLLINS PATH, P O BIDHANNAGAR, DURGAPUR-713212 WEST BENGAL	ACA 11/08/2003				
127	059277	Mrs. BHURA VINETA 102 GOYAL PALACE RAJPATH HIGHWAY VASTRAPUR, BODAKDEV AHMEDABAD-380054	ACA 01/04/2003				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
141	078544	Mrs. ARUNTI JASHAY MEHTA A-20, HIGHWAY DARSHAN BUILDING, NEAR TEEN HATH NAKA, THANE (WEST), THANE-400604	ACA 31/07/2003	155	100540	Mr. SANDEEP SARVOTHAM PAI V M SALGAOCAR & BRO PVT LTD, SALGAOCAR HOUSE, DR. F. L. GOMES RD, VASCO DA GAMA GOA-403802	FCA 01/04/2003
142	086540	Mr. MITHAN LAL PLOT NO 125 STICE, MUSAI GAON, SINKAR, DISTT. NASIK SINKAR-422112	FCA 30/09/2003	156	100564	Mr. RANADE MILIND MANOHAR A/302, ASHWINI SOCIETY, EKSAR ROAD, BORIVALI WEST MUMBAI-400091	ACA 12/02/2004
143	088719	Mr. GAURAV DANG EXXONMOBIL COMPANY INDIA PVT LTD., KALPATRU POINT PLOT NO 107, ROAD NO 8, SION (E), MUMBAI-400022	ACA 01/04/2003	157	100590	Mr. SHAH JGNESH RATILAL 11, SHYAM BHUVAN, GOKHALE ROAD, MULUND (E) MUMBAI-400061	ACA 27/08/2002
144	089187	Mr. BAGCHI ANMESH DY GENERAL MANAGER (FIN & ACS), KIRLOSKAR BROTHERS LTD, KIRLOSARVADI, SANGLI-416308	FCA 02/01/2004	158	100825	Mr. RAJENDRAKUMAR MAIKULAL PASI JR ACCOUNTS OFFICER, BHARAT SANCHAR NIGAM LTD, O/O TELECOM DISTRICT MANAGER, MICROWAVE COMPOUND, DHAR-454001	FCA 07/02/2004
145	093432	Mr. JAIN SANJAY KUMAR RELIANCE IND LTD ( F & A DEPARTMENT), C/O IPCL LTD. MAHARASHTRA GAS CRACKER COMPLEX, PETROCHEMICAL TOWNSHIP, DIST: RAIGAD NAGOTHANE, RAIGAD-402125	FCA 01/05/2003	159	100964	Mrs. NEHA NISHITH SHAH 60 YOGESHWARNAGAR SOCIETY, NR LITTLE FLOWER SCHOOL, BHATTA PALDI, AHMEDABAD-380007	FCA 01/09/2003
146	095537	Mr. BANSAL VIPIN A-102, CAMELLIA, JAMBHULKAR CHOWK, SRP ROAD, WANOWARI, PUNE-411040	FCA 01/09/2003	160	100994	Mr. DUTIA AMAR SHANTIKUMAR B/401 RAHUL APTS., OPP SHOPPERS STOP, S V ROAD ANDHERI WEST, MUMBAI-400058	ACA 05/08/2002
147	095939	Mr. SRIVASTAVA RAHUL A-702, SURYADEEP TOWERS, NEAR NARODA BANK, GURUKUL, AHMEDABAD-0	ACA 20/03/2003	161	101123	Mr. GAITONDE ROHIT SURENDRA D-5, SHRI KIRTI CH S LTD., VIDYANAGARI MARG, SANTACRUZ - EAST, MUMBAI-400098	ACA 01/04/2003
148	098049	Mr. ATUL KUMAR C/O GURJAN BANSAL ACCOUNTS DEPARTMENT, NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD, 4TH FLOOR TRADE WORLD LOWER PAREL, KAMALA MILLS COMPOUND SENAPATI BAPAT MARG, MUMBAI-400013	ACA 11/08/2003	162	101234	Mr. DHANUKA PRAKASH LAXMANPRASAD 17, SARVA SHREY BLDG., RAMCHANDRA LANE, MALAD WEST, MUMBAI-400064	ACA 27/02/2004
149	100045	Ms. SAMEER NINGOO ANJANI 204, KRISHNAKUNJ #3, TAMBE NAKAR, S N RD, MULUND(W), MUMBAI-400080	ACA 18/12/2003	163	101266	Mr. SOMANI SANJAYKUMAR PRABHUDAYAL F-7/6 HARINIKETAN COOP SOCIETY, BANGUR NAGAR, GOREGAON WEST, MUMBAI-400090	ACA 18/08/2003
150	100181	Mr. JOSHI MANDAR VINAYAK 1 DINATH SMRUTH SOCIETY, K W CHITALE PATH, DADAR MUMBAI-400028	ACA 01/04/2003	164	101286	Mr. NAVIN OMPRAKASH AGARWAL 302 BHAWANI KRUPA, CHANDAN PARK, NEAR MONIKA TOWER, BHAYANDAR (EAST), BHAYANDAR-401105	FCA 01/04/2003
151	100327	Mr. DOSHI SHYAM KANTIBHAI 25 SAVANI APARTMENTS, M G ROAD, GHATKOPAR(E) MUMBAI-400077	ACA 01/12/2003	165	101293	Ms. SAURAL ASHWIN MEHTA 59 MAKER TOWERS, CUFFE DPARADE, MUMBAI-400005	FCA 31/12/2003
152	100335	Mr. SHAH NITIN MAHENDRABHAI A/7, MANGAL KUNJ, S V ROAD, BORIVALI -W, MUMBAI-400082	ACA 31/03/2003	166	101337	Mr. MUNAWWAR MOHIUDDIN ANWAR 406 A NOOR E JAHAN PHASE 2, PIPE ROAD, NEAR KURLA NURSING HOMME, KURLA WEST, MUMBAI-400070	FCA 05/12/2003
153	100484	Mr. DOSHI DEEPAK KUMAR 15 BIKANER BHAWAN, NR JAIN TEMPLE, BEHIND J B NAGAR, ANDHERI EAST, MUMBAI-400059	ACA 30/09/2003	167	101476	Mr. VIPUL PRAVINCHANDRA SHAH 3/A/5 MUNICIPAL STAFF QTR, N.R. SCHOOL BODYLINE CHAR RASTA, C G ROAD, AHMEDABAD-380009	ACA 23/09/2003
154	100533	Mr. SURESH NANKRAM UCHLANI ROOM NO.1, BARRACK NO.553, AWATRAM CHOWK ULHASNAGAR-421002	ACA 01/04/2003	168	101535	Mr. SUBRATA MISHRA 12/32 VIJAY NAGARI ANNEXE, GHODBUNDER ROAD, WAGHBIL NAKA, KASAR VADAVALI THANE (WEST) THANE-400601	ACA 07/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
169	101715	Mr. SHAH NILESH NEMCHAND A/5 POONAM BUILDING, SITLADEVI TEMPLE ROAD, MAHIM, MUMBAI-400016	ACA 15/01/2004	184	103334	Mr. SHIRAZ AZIZ VASTANI B5/311 EDEN GARDEN, S NO 33/1/1 PUNE NAGAR ROAD, NEAR WEIKFIELD FACTORY, PUNE-411014	ACA 15/12/2003
170	101768	Mr. BLESSON OOMMEN 504/B STERLING APT., KANDERPADA, OFF LINK ROAD DAHISAR(WEST), MUMBAI-400068	ACA 01/04/2002	185	103355	Ms. MAYURI VALLABH GHELANI 101-E, WALKESHWAR ROAD, INDRA BHUVAN, GROUND FLOOR, MUMBAI-400006	ACA 01/04/2003
171	101974	Mr. MEHTA SUKRUT SHARDUL 36, RATAN-ABAD, TUKARAM JOSHI ROAD, MUMBAI-400007	ACA 16/10/2002	186	103361	Mr. SHAH HITESH CHANDRAKANT 203/B SHANTIDEEP, 60 FEET ROAD, BHAYANDAR (WEST), THANE DIST BHAYANDAR-401101	ACA 09/02/2004
172	102148	Mr. JETHVA MAYURKUMAR PREMJI BHAJI 701 / A SALASAR CLASSIC CHS LTD., NEAR NAGAR BHAVAN, FATEK ROAD, BHAYANDAR WEST, BHAYANDAR-401101	ACA 01/04/2003	187	103485	Mr. SUMIT JAIN A-304, RAJ UMANG-I, SHIVA VALLABH RD, ASHOK VAN, DAHISAR-EAST MUMBAI-400068	ACA 07/07/2003
173	102343	Mrs. SONALI HRISHIKESH DHANWATAY 245G RAVISHANKAR SHUKLA ROAD, BEHIND GPO (RAJ LAXMI MARG), CIVIL LINES, NAGPUR-440001	FCA 03/07/2003	188	103522	Mr. GUPTA SANJAY HEMRAJ 88, MOUNT UNIQUE, 62-A, PEDDAR ROAD, MUMBAI-400026	ACA 01/10/2003
174	102415	Mr. KARIYA PARESH SHANTILAL B-315 BHAVESHWAR ARCADE, OPP SHREYAS TALKIES, L B S MARG, GHATKOPAR WEST, MUMBAI-400086	ACA 15/01/2004	189	103546	Mr. DIVETIA VIVEK GAURANGBHAI 12, HARI-DWAR, 23, PATEL SCTY, GULBAJI TEKRA, PANCHWATI, AHMEDABAD-380006	ACA 16/09/2003
175	102678	Mr. BRIJESH RAMESHCHANDRA JANI 17 RAVI KIRAN SOCIETY, NEAR R C PATEL HIGH SCHOOL, VASNA, AHMEDABAD-360007	FCA 31/12/2003	190	103679	Mr. APOORVA D SAVAI 403, USHA VILLA, AMRUTNAGAR, GHATKOPAR - WEST MUMBAI-400086	FCA 20/02/2004
176	102744	Mr. KOTHARI HARSH M DSP MERRILL VYNCH INVESTMENT MANAGERS LTD, 514 RAHEJA CHAMBERS, NARIMAN POINT, MUMBAI-400021	ACA 01/04/2003	191	103757	Mr. RAKESHKUMAR JAYANTILAL PUNMIYA C03/A, BUILDING NO.1, AAKANKSHA, BEHIND SUNDER NAGAR & GOREGAON TEL. EXCHANGE, GOREGAON (WEST), MUMBAI-400062	FCA 23/03/2004
177	102699	Ms. JOSHI RESHMA JAYENDRA 234, SAI PRASAD, 10TH ROAD, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 04/03/2004	192	103774	Mr. JAGAD CHANDRESH MANUBHAI C/40, SUNIL SOCIETY, B/H NIRMAL SOCIETY, ON ISANPURS CANAL, MANINAGAR AHMEDABAD-380008	ACA 01/02/2004
178	102932	Mrs. SHILPA RAJESH BOHRA TRINITY INFOTECH LIMITED, UNIT 2008-10, 20/F, BOSS COMMERCIAL CENTRE, JORDAN KOWLOON, HONG KONG-0, HONG KONG	ACA 01/04/2003	193	103966	Mr. DHOBALE RAVINDRA BABAN 403 BIJAL APARTMENT, RAMCHANDRA NAGAR ONE, PANCH PAKHADI, KAMGAR HOSPITAL RD THANE (W), THANE-400604	ACA 01/04/2003
179	102065	Mr. KAMAL ANIL KAPADIA 817, BOMBAY MARKET, TARDEO ROAD, 8TH FLOOR, MUMBAI-400034	FCA 31/10/2003	194	104075	Mr. IYER NITISH R B-1/20 MADHUVRUNDH SOCIETY, NR FANNA PARK, GHATLODIA, AHMEDABAD-380061	ACA 14/02/2004
180	103000	Mr. LODHA VIVEK VEERENDRA VICEROY PARK 9B TOWER A, THAKUR VILLAGE, KANDIVLI(E), MUMBAI-400101	ACA 01/04/2003	195	104181	Ms. DELNAZ BHIKHU GILLIMORIA 275 B CAPTAIN BLDG, 3RD FLOOR, CHICKALWADI, GRANT ROAD, MUMBAI-400007	ACA 28/03/2003
181	103058	Mr. PATEL AKASH PRAVIN SNEH-TRUPTI, A-13, SWARUP TENAMENTS, MANJALPUR, VADODARA-390011	ACA 01/04/2003	196	104202	Mr. VENKATESH S VISWANATHAN C-12, NARAYAN BHUVAN TENANTS CO OP HSG SOC LTD, RAJAJI PATH 4TH CROSS ROAD, DIST : THANE, DOMBIVILI - EAST, DOMBIVILI-421201	ACA 01/04/2003
182	103121	Mr. YOGESH RAMESHKUMAR SHROFF A-701, POONAM RESIDENCY -1, HOLY CROSS RD EXTN. I C COLONY, VRISHI COMPLEX, NR. APNA BAZAR, BORIVALI WEST MUMBAI-400103	FCA 01/04/2003	197	104346	Mr. SANJAY NAVNITLAL KARIYA AMBAVADI, GAYATRI KRUPA, PATEL COMPOUND, DIST : JUNAGADH (SAURASHTRA), KESHOD, JUNAGADH-362220	ACA 12/09/2002
183	103240	Mr. SANDU DHANANJAY ANAND ANAND 7TH ROAD, SANDUWADI, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 30/09/2002				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
198	104354	Mr. GAGAN CHOUDHARI A 402 SAMIR (SHITAL NAGAR), CHAKRAVARTI ASHOK CROSS RD NO 1, OPP CHILDREN'S ACADEMY SCHOOL, KANDIVALI EAST, MUMBAI-400101	ACA 23/05/2002	212	106098	Mr AJAY JAGDISH TIBREWALA A-7/44, GOVAL INTERCITY, OPP T V TOWER, DRIVE-IN-ROAD, AHMEDABAD-380051	ACA 01/08/2003
199	104381	Mr. KHANDEKAR SAMEER PRAKASH 4/8, 2/1 KALPATARU CHS, SECTOR 14, AIROLI, NAVI MUMBAI-400708	ACA 01/04/2003	213	106275	Mr HIMANSHU VIJAY PANDYA C/O BHARAT ELECTRONICS LTD, IIND FLOOR FINANCE DEPARTMENT, OUTER RING ROAD, NAGAVARA, BANGALORE-560045	ACA 26/05/2003
200	104896	Mr VINAY M GHATIKAR W/22 DNYANA KUNJA CHS, P.O., I.I.T. POWAI, MUMBAI-400076	ACA 29/12/2003	214	106482	Mr TEJAS SHAM MORE 602, SHARDA GOVIND BUILDING, NEAR NEELAM NAGAR PHASE II, GAVANPADA, MULUND EAST, MUMBAI-400081	ACA 29/10/2003
201	104705	Mr. RANJEET AGARWAL A/102 GOKUL GAGAN CO-OP HOUSING SOC.LTD, THAKUR VILLAGE, KANDIVLI(E) MUMBAI-400101	FCA 21/08/2003	215	106483	Mr PRADIP NIVRUTTI BASAR HOUSE NO. 1444, WARD NO. 32, NEAR SAVKAR MASJID, URUN-ISLAMPUR, TAL.-WALWA SANGLI-415409	ACA 21/07/2003
202	104897	Ms SEEMA VINODCHANDRA KOTHARI 1 CHANDNI, OPP MAYUR CINEMA, S M ROAD, KANDIVLI - W, MUMBAI-400067	ACA 01/12/2003	216	106514	Mr BIJU VIKRAMAN GRANT THORNTON ACUMEN, P B - 1157, GABORONE-0, BOTSWANA,	ACA 11/02/2004
203	104906	Mr BHATIA CHINTAN KIRANBHAI A/7-A, PRIYA APARTMENTS, OPP HIGH COURT JUDGES BUNGLOWS, SATELLITE, AHMEDABAD-380015	ACA 28/08/2003	217	106534	Ms NAZNEEN H DALAL K-4/64, MERWANJEE, CAMA PARK, CAMA ROAD, ANDHERI - WEST MUMBAI-400058	ACA 17/11/2003
204	105050	Mr MAHESH SHANTARAM MAIYA B-301, PARAS BUILDING NO.A-45, OPP. HILTON SHOPPING CENTRE, EVERSHINE CITY, GOKUL NAGAR, DIST THANE VASAI-401202	ACA 22/12/2003	218	106800	Mr DAYANAND GANGADHAR GAJELLI 101 MITALI APARTMENTS, BEHIND TEJO BAHAVAN HALL, NEAR GODDEV NAKA, B P ROAD, BHAYANDAR-401105	ACA 13/10/2003
205	105079	Mr JIGNESH VASANT KENIA C/O M/S KPMG, P.O.BOX 641 POSTAL CODE 112, RUWI-0, SULTANATE OF OMAN	ACA 24/11/2003	219	106629	Mrs. MANASI ANIL BHAMBHANI 11, KRISHNADHAM BUNGALOWS, OPP KALIKALA TEMPLE, INDIRA BRIDGE ROAD, P O SARDARNAGAR, AHMEDABAD-382475	ACA 24/07/2003
206	105140	Mr RISHABH ARUNKUMAR GANDHI 10 SUDAMA, 214 WALKESHWAR ROAD, MUMBAI-400006	ACA 26/03/2003	220	106789	Mr VIRAL NAGARAJ S KANABAR "HITESH BUNGLOW", NR. GARDEN, AMBAWADI, KESHOD, KESHOD-362220	ACA 12/03/2002
207	105192	Ms. DEEPARANI LAXMAN MUNGEKAR 20/576 NEHRU NAGAR, KIRLA EAST MUMBAI-400024	ACA 12/12/2003	221	106815	Mr BHARAT K SHETTY F/3A, VISHRAMYOG CHS LTD, 145 A L.T. ROAD, OPP DON BOSCO SCHOOL, BORIVALI - WEST, MUMBAI-400091	ACA 02/03/2003
208	105252	Mr SATYEN BHARAT SHETH 6/B, BABA RAMCAS BLDG., 2, HEMU KALANI ROAD 2, IRANI WADI, KANDIVALI WEST, MUMBAI-400067	ACA 24/12/2003	222	106889	Mr. DHARMENDRA KIRIT DESAI 4, RATNADEEP, P M ROAD, SANTACRUZ - WEST, MUMBAI-400054	ACA 03/03/2004
209	105271	Ms MEETALI ANILKUMAR HARSOLE HDFC STANDARD LIFE, INSURANCE COMPANY 5TH FLOOR, IL&FS FINANCIAL CENTRE PLOT NO C-22 G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX BANDRA EAST, MUMBAI-400051	ACA 31/03/2003	223	106959	Ms MEETA CHANDRAKANT MEHTA A 7 MONTVERT 2, S NO 128/2A II, PASHAN SUS ROAD, PASHAN, PUNE-411021	ACA 26/03/2003
210	105583	Mr NEHAL DHANESHKUMAR SAMPAT 351/A RAJCHA BUILDING, ROOM NO 22/26, OPP THAKURDWAR PO, JSS ROAD, MUMBAI-400002	ACA 26/09/2003	224	107126	Mr HUZEFA SHOEB BASRAI VEENA BEENA APARTMENTS, A/504, P.T.ROAD, SEWRI WEST, MUMBAI-400015	ACA 07/10/2003
211	105636	Mr SUDEESH K V K NAIR NEAR N Y F I HOSPITAL, J B NAGAR P O, ANDHERI - EAST, MUMBAI-400059	FCA 11/03/2004	225	107261	Mr DHARMESH PURUSHOTTAMBHAI PATEL M-262/3139 SUNDERVAN APARTMENT, SOLA ROAD, NARANPURA, AHMEDABAD-380063	ACA 16/02/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
226	107302	Mrs. RANJUBALA MANGESH PURANIK 49, AMBAZARI LAY OUT, NAGPUR-440010	ACA 20/04/2003	241	108381	Mr JANEESH JAGDISHBHAI PATEL 4 SARVOTAM NAGAR SOCIETY, ST XAVIER'S SCHOOL, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-0	ACA 30/09/2003
227	107386	Mrs. NEHAL KAPIL THACKER 12 A OWNERS COURT, A ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI-400020	ACA 04/09/2003	242	108492	Mr NIRAJ ONKARNATH KHANDLWAL 15/53 TRIVENI CO-OP HSG SOC, ADARSH NAGAR OPP KAMAT CLUB, NEW LINK ROAD, JOGESHWARI WEST, MUMBAI-400102	ACA 17/02/2004
228	107533	Mr PINAL DILIPKUMAR SHAH 2084 NAWAB'S KHANCHO, NAGJIBHUDHAR'S POLE, MANDVI'S POLE, MANEK CHOWK, AHMEDABAD-380001	ACA 15/01/2004	243	108534	Mr AMIT ARUN DESHPANDE SARTHAK PLOT NO. 15, GANDHI NAGAR, DOMBIVALI-421204	ACA 11/07/2002
229	107611	Mr SATYENDRA ARVIND GORE 773/6A ISHKRIPA, NEAR KAMALA NEHRU PARK, PUNE-411004	ACA 13/02/2004	244	108536	Ms PACHECO ANITA MAY A/10 PRAYOG HSG SOCIETY, PLOT 125 PRABHAT COLONY, SANTACRUZ EAST, MUMBAI-400055	ACA 09/02/2004
230	107627	Mr VIRESH JAYAWANT GORAKSHA 2/23 CHEMBUR VAIBHAV SOC., SAHAKAR NAGAR NO 5, SHELL COLONY CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 15/12/2003	245	108582	Mr SANTOSH KANHAIALAL VYAS B-18 FRIENDS PARK, SENAPATI BAPAT ROAD, CHHATURSHINGI, PUNE-411016	ACA 10/07/2003
231	107713	Mr KIRAN B JOSHI E/2- 601, HIGHLAND PARK, NR JAI SHASTRY NAGAR, MULUND COLONY, GURU GOVIND SINGH MARG, MULUND - WEST MUMBAI-400080	ACA 08/12/2003	246	108614	Mr. JALANI MAHESH KUMAR 504 TEJSHREE CO-OP HSG SOCIETY, PLOT -2 SECTOR, AIROLI, NAVI MUMBAI-400708	ACA 01/04/2003
232	107720	Ms DEEPA VISHNU TAKKE 67/2230, NEHRU NAGAR, KURLA - EAST, MUMBAI-400024	ACA 26/12/2003	247	108615	Mrs. MRUNAL MANDAR THORAT 1 SHRIKANTH NIWAS, SANT TUKARAM ROAD, MULUND EAST, MUMBAI-400081	ACA 28/12/2003
233	107781	Mr AMAY MAHESHWAR DATE 4 ASHIRVAD BLDG., DATTAPADA ROAD, BORIVLI EAST, MUMBAI-400066	ACA 22/01/2004	248	108693	Mr MAKARAND ARVIND LIMAYE 721/2B 17 VIKAS NAGAR, NAVI PETH, PUNE-411030	ACA 22/02/2004
234	107870	Mr ARUNKUMAR ASHOKAN K 205 2ND FLOOR KUNAL CO OP HSG SOCY LTD., UDAYSHREE ROAD, BHANDUP VILLAGE, MUMBAI-400042	ACA 04/09/2002	249	108888	Mr NITIN SURESHKUMAR AJMEPA CREDIT MANAGER-ICICI HOME FINANCE CO LTD GROUND FLOOR VASANT PLAZA, BAGAL CHOWK, RAJARAMPURI, KOLHAPUR-416001	ACA 19/01/2004
235	107900	Mrs. SWATI RAJESH SHIRISHKAR "SHIRISH KUNJ", PLOT NO.12,B, ANAND VIHAR SOCIETY, 20TH ROAD, KHAR (W) MUMBAI-400052	ACA 25/09/2003	250	108942	Ms PURVI PANKAJ SHAH 8 GAZDAR STREET, JASHODA MANSION, 2ND FLOOR, CHIRA BAZAR, MUMBAI-400002	ACA 16/09/2003
236	107907	Mr. ASHLEY PHILIP MENEZES HILLGLADE, FLAT 6, 7 A - PALI ROAD, BANDRA, MUMBAI-400050	ACA 01/04/2003	251	108978	Mr MAHAVEER KUMAR JAIN GROUND FLOOR FLAT NO 3, A/4 BALAKRISHNA APARTMENTS, LAXMI NAGAR(EAST), NAGPUR-440022	ACA 01/11/2003
237	107932	Mrs. MONA RIKHIL SHAH C-1110 RAJ RESIDENCY II, NEAR MAHAVIR NAGAR, DAHANUKAR WADI, KANDIVALI(W), MUMBAI-400067	ACA 23/03/2004	252	109013	Mr SUSHANT SHREEKANT OKA MR OKA SUSHANT SHREEKANT, DADAR SAI KIRTI CHS, Y WING 3RD FLOOR, ANAND PATIL ROAD SHIVAJI PARK, MUMBAI-400026	ACA 12/03/2004
238	108051	Mr AMOL ARVIND PUDKEY 3E 4 RAJKAMAL COMPLEX, PANCHSHEEL SQUARE, DHANTOLI, NAGPUR-440001	ACA 01/11/2003	253	109043	Mr HARDIK PRABODHKUMAR SHAH PATHTHARWALA BUILDINGQ, NR PALDI POST OFFICE, FATEH NAGAR PALDI, AHMEDABAD-380007	ACA 01/04/2003
239	108182	Mr. A R SHANKAR FLAT NO 12, BUILDING 66A, VANSIVAT CO-OP HSG SOC., BRINDAVAN COMPLEX, MAJIWADA, THANE-400601	ACA 13/06/2003	254	109089	Mrs. KUMUDINI PRAMOD HATKAR 303, 2ND FLOOR, ANANT CHHAYA CO.OP. HSG.SOCY,N.S.S.ROAD, NEAR GOPI TALIKES, DOMBIVLI WEST DIST THANE, DOMBIVLI-421202	ACA 01/11/2003
240	108262	Mr MUKESH KUMAR JAIN 52 CHAMPA GALLY, 1 ST FLOOR, ROOM NO 4, KALBADEVI, MUMBAI-400002	ACA 22/03/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
255	109092	Mr VIDYADHAR MANSING KURLEKAR D/121, KURLEKAR BUILDING, GAOTHAN, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 13/08/2003	271	110370	Mr SATISH SUNDER SHETTY A/104 TEAKWOOD, VASANT GARDEN, NEAR SWPNA NAGAR B R ROAD, MULUND WEST, MUMBAI-400080	ACA 01/09/2003
256	109111	Ms GAURI VIJAY BHULESKAR 3/B, ISMAIL BUILDING, 381, DR D.N. ROAD, FORT, MUMBAI-400023	ACA 22/07/2003	272	110440	Mr KULJ VIRENDRA DESAI B/404 RAJ MANOR, LIBERTY GARDEN, MALAD WEST, MUMBAI-400084	ACA 01/04/2003
257	109141	Mr HETAL ARVINDSH V GANDHI 207/1 SHASTRI NAG/ 3, DR B A ROAD, OPP SHIVSENA GALLI BHAYANDAR WEST, BHAYANDAR-401101	ACA 22/04/2003	273	110571	Mr. NITIN GANGADAS CHANDAK 402 RAJNIGANDHA, TALMIKI ROAD, SARASWAT COLONY, SANTACRUZ (WEST), MUMBAI-400054	ACA 01/04/2003
258	109508	Ms RADHIKA APPULINGAM NO 10, GOVIND NAGAR, NAGPUR-440025	ACA 18/09/2002	274	110580	Ms RUMA MANGLESH SURANA P-85 BADHWAR PARK, WODEHOUSE ROAD, COLEABA, MUMBAI-400005	ACA 19/08/2003
259	109843	Ms HARSHA JETHANAND BUCHHADA BLDG NO.8, R.NO.2 PAWAN BAUG, CHINCHOLI GATE, MALAD WEST, MUMBAI-400084	ACA 01/04/2003	275	110715	Mr ANUJ HARENDRA PRASAD SINHA FLAT NO 3, 3RD FLOOR, BORSE BUILDING, S NO 1/3-4 ABOVE KOTHRUD POST OFFICE, KOTHRUD, PUNE-411029	ACA 28/09/2003
260	109910	Mr. VIKRAM VASANT DATIR "SHREE" 14, SURYA SOCIETY, LAXMIPURA ROAD, GORWA, VADODARA-390016	ACA 01/02/2004	276	110770	Mr. SURAJ HARAYANA SUVARNA LAXMI NAGAR NO 7 ROOM NO 9, ADARSH NAGAR, MEGHWADI, JOGESHWARI (EAST), MUMBAI-400080	ACA 14/01/2004
261	109937	Mr DEEPAK DAS NEVES PEREIRA 17 B ELA-VISTA SIRLIM, DRAMAPUR P.O. SALCETE GOA-403725	ACA 28/08/2003	277	110776	Mr AMIT RAMESH HARAN 239/8 JAWAHAR NAGAR, 15TH ROAD, GOREGAON (WEST), MUMBAI-400062	ACA 30/01/2004
262	109999	Mr HARSH NALIN SHAH NO 7 PHILIPS SOCIETY, WANAWADI, PUNE-411040	ACA 15/12/2003	278	110803	Mr. BIREN BHARAT SHAH 13 JAYSWAMI KRUPA, M.G. CROSS RD NO.3, KANDIVALI (W), MUMBAI-400067	ACA 01/04/2003
263	110005	Mr SATYAJIT VINAYAK KAUNDINIA FLAT NO.4, ANANDVAN APTS, BURUDGAON RD, AHMEDNAGAR-414001	ACA 27/08/2003	279	110808	Mr NIMISH ANANDRAJ SHAH C/O ICICI HOME FINANCE CO LTD., F-1/B SUYOJT TRADE CENTRE, SHARANPUR ROAD, OPP RAJIV GANDHI BHAVAN, NASHIK-422002	ACA 18/03/2004
264	110033	Mr DEVANG BHUDARDAS CHUDASAMA 24 SARDAR NAGAR SOCIETY, COLLEGE ROAD, JUNAGADH-362001	ACA 03/03/2003	280	110858	Mr AJAYKUMAR SANJEEVA KOTIAN JHANGIR LODGE ROOM NO.4, 6, MORI ROAD, MAHIM, MUMBAI-400018	ACA 20/02/2003
265	110043	Mr ASHISH ANANT KARKHANIS 5 SHRAMA SAPHALYA, SRIMPOLI ROAD, BORIVALI WEST, MUMBAI-400082	ACA 21/01/2004	281	110828	Mr ASHISH SHARAD BEKE 6 RAHUL SOCIETY, NEAR PARMARTH NIKETAN, PANCH PAKHADI, THANE WEST, THANE-400802	ACA 03/09/2003
266	110089	Mr KALPESH KANAIYALAL JOSHI "KALP KUNJ", UPALISHERI, SIDHPUR-384151	ACA 01/04/2003	282	110832	Mr. KAUSHAL RAMESHCHANDRA SHAH 303 NEW MANI BHUVAN, "B" WING, BEHIND APSARA STORES, 3 M G ROAD, VILE PARLE (EAST), MUMBAI-400057	ACA 08/01/2003
267	110283	Ms SHILPA PANDURANG SHETYE 23/25 PURUSHOTTAM, KANJI CHAWL, ZAIBA WADI, THAKURDWAR, MUMBAI-400002	ACA 18/03/2004	283	110837	Mr. AMAR NAVIN MALDE 204 HIRA MAHAL, NR VANDANA CINEMA, L.B.S. MARG, THANE (W), THANE-400802	ACA 31/01/2004
268	110285	Mr SAUMITRA ASHOK JAMBEKAR A 44 PANORAMA PARK, SHIV VALLABH ROAD, ASHOKVAN, DAHISAR EAST, MUMBAI-400068	ACA 17/03/2004	284	110981	Mr. SHARVIL PRADIP MAJUMDAR 14 TIRTHNAGAR SOC-1, NR BHUYUGDEV, OPP NIKITA PARK GHATLODA, CHAR RASTA AHMEDABAD-380061	ACA 30/03/2003
269	110326	Mr DEVANG RAJNIKANT SHAH B/54 VASUDEV APARTMENTS, P P ROAD, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400089	ACA 18/09/2002				
270	110348	Mr RAMESH VENKATESHWARAM IYER 16 TIRTH DUPLEX, MANJALPUR, G I D C ROAD, VADODARA-390011	ACA 05/02/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
285	111011	Mr GANESH L NARAYAN 31 SHIV SAGAR COOP HSG SOC. MAHATMA PHULE ROAD VISHNU NAGAR, DOMBIVALI-421202	ACA 25/05/2003	300	111661	Mrs. SUNITA SULTAN BADANI 206 SAINATH NIWAS, RAMNAGAR STATION ROAD, NEAR R T O OFFICE, DOMBIVALI EST, DOMBIVALI-421201	ACA 01/01/2004
286	111023	MR BHADRESH PRARODH VYAS 6- A JAI SANTOSHI NAGAR, NEAR PETROL PUMP, KARELIBAUG, VADODARA-390018	ACA 06/10/2002	301	111957	Mr HIMANSHU MANSUKHLAL BHOJANI 195/10 JAWAHAR NAGAR, KHETAN KUTIR, ROAD NO.3, GOREGAON WEST, MUMBAI-400062	ACA 25/08/2003
287	111259	Mr. VIKRANT GANESHKUMAR BHATIA A-2 NAND APTS., OPP VIJAYA BANK, GURUKUL RD, DRIVE-IN, AHMEDABAD-380052	ACA 01/04/2003	302	111886	Ms RADHIKA MANUBHAI HUPAREL D/8 ATUR PARK, S T ROAD, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 27/03/2003
288	111263	Mr. TEJAS PRAFUL CHOKSHI D/A 403 SKY HIGH, VALNAI VILLAGE, NEAR TANK ROAD, ORLEM, MALAD (WEST), MUMBAI-400064	ACA 01/04/2003	303	111900	Mr ABHISHEK PANSARI FLAT 151, SEALORD -B, CUFFE PARADE, MUMBAI-400005	ACA 01/04/2003
289	111265	Mr GOPAL GHANSHYAMBHAI SANGHAVI 301 CHARKOP SURAKSHA COOP SOC., PLOT NO. 14 RDP-2 CHARKOP, KANDIVALI(WEST), MUMBAI-400067	ACA 17/09/2003	304	111920	Mr SANJAY PRATAPRAI LAKHANI 303 PRAMUKH COMPLEX KANTA STREET, VIKAS GRUH ROAD MILIPARA 5 CORNER, RAJKOT-360002	ACA 01/04/2003
290	111399	Mr DEEPAKKUMAR DHANJI FURIA FLAT NO 3 2ND FLOOR, SONALI APARTMENT, OLD BOMBAY AGRA ROAD, CHARAJI THANE WEST, THANE-400601	ACA 01/04/2003	305	111945	Mr SATYAVAN RAMAKANT RANE 5/158 SUBHASH NAGAR, PANCHSHEEL CHS, CHEMBUR, MUMBAI-400071	ACA 17/11/2003
291	111474	Mr VINAYAKUMAR M SHETTY KANA HOUSE, POST KODAVOOR, UDUPI-576106	ACA 10/01/2004	306	112071	Mr SANCHAY VALLABH AGRAWAL 604 1A NESTLE APTS, P B MARG, NEAR DEEPAK CINEMA, WORLI, MUMBAI-400013	ACA 31/03/2003
292	111484	Mr YAKUB ABBAS LOKHANDWALA 198 RAVIWAR PETH, 930 BUDHEAR PETH(NEW), BOHRI ALI 1ST FLOOR, PUNE-411002	ACA 11/11/2003	307	112198	Mr. MUJTAFA ZOE B UDAIPURWALA B G & CO, 49 BHAJIPALA LNE, MUMBAI-400003	ACA 29/03/2004
293	111504	Mr MITESH RAJENDRA DAMANIA 76-78 PRABHU BHUVAN, 3RD FLR, V P ROAD, MUMBAI-400004	ACA 29/01/2004	308	112248	Mr. VIKAS GUPTA A-6/53 NABARD NAGAR, THAKUR COMPLEX, KANDIVALI EAST, MUMBAI-400101	ACA 31/03/2003
294	111519	Mr. SAURABH KISHORE MUNI C/312, SABARMATI, SAHAKARGRAM, ASHOK NAGAR, KANDIVALI-E, MUMBAI-400101	ACA 05/01/2004	309	112271	Ms. YOGITA VIBHAKAR PRADHAN R H 12 DEEPA SOC, SECTOR-2, AIROLI, NAVI MUMBAI-400708	ACA 23/12/2003
295	111562	Ms JJI YOGESH HATHI VIBHUTI YOG PLOT 307/2 SECTOR 7-A GANDHINAGAR-382007	ACA 01/02/2003	310	112292	Mr BHARTESH BASVARAJ POOJARI B 603 VIKAS APARTMENT, SAI BABA NAGAR, MIFA ROAD EAST, MIRA ROAD-0	ACA 09/03/2004
296	111640	Mr. ANILKUMAR VALLABHDAS GHELANI 101 WALKESHWAR ROAD, INDRA BHAVAN [W], GROUND FLOOR, MUMBAI-400006	ACA 01/04/2003	311	112307	Mr ASHWIN AMRATLAL JAIN E/1011 10TH FLOOR, ROYAL SAMRAT S V ROAD, NEXT TO CINEMAX THEATRE, GOREGAON WEST, MUMBAI-400082	ACA 01/04/2003
297	111649	Mrs. SHWETA RAJESH KULKARNI "EDHA" 89/9A, SHIKSHAK NAGAR, PAUD ROAD, PUNE-411038	ACA 26/12/2003	312	112365	Mr SALIM NOORMOHAMMED VAHORA BLDG NO. 21 FLAT NO. 603 MHADA OSHIWARA, GULMOHAR CHS LTD NEW LINK ROAD ANDHERI [W], MUMBAI-400053	ACA 12/01/2004
298	111827	Mr VISHAL MOHAN SHAH BHAGWAN BHUVAN, 5TH FLOOR, 196, SAMUEL ST, MASJID BUNDAR, MUMBAI-400009	ACA 22/09/2003	313	112395	Mr. NIHAL MANIKANT SHAH G-9, NALANDA COMPLEX, B/H, HOTEL PRESIDENT, TEEN BHATTI, JAMNAGAR-361001	ACA 31/03/2003
299	111841	Mr SATISH RAMJI DEDHIA SARASWATI SADAN, FLAT NO.1/2 GROUND FLOOR, DEVIDAYAL ROAD, OPP. JALARAM ASHISH APTS., MULUND (WEST), MUMBAI-400080	ACA 26/09/2003	314	112401	Ms SONALI KRISHNANATH PEDNEKAR A/12 DEEP-SHIKHA, NR PIRAMALNG, S V ROAD GOREGAON WEST, MUMBAI-400062	ACA 21/01/2004
				315	112447	Ms JIGISHA KIRANCHANDRA JAINI ALLARAKHIA BLDG B BLOCK 1ST FLR ROOM NO. 17, KHETWADI 9TH LANE, MUMBAI-400004	ACA 31/03/2003



S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
316	112465	Mr JITENDRAKUMAR BHAGUBHAI PATEL 26 LAXMIKUNJ TENAMENTS OPP PARAS NAGAR, NR JETHABHAI YAV ISANPUR VATVA ROAD, ISANPUR, AHMEDABAD-382443	ACA 18/02/2003	331	113187	Ms. SHIVALI ANOOP AGARWAL L-19 GREEN PARK (MAIN), NEW DELHI-110016	ACA 31/03/2003
317	112487	Mr. SWAPNIL RAMCHANDRA VAISHAMPAYAN B/8, HAZELINE SOCIETY, GAOTHAN LANENO.1, ANDHERI-W, MUMBAI-400058	ACA 19/01/2004	332	113232	Mr. HRISHIKESH SANJIV SATHE 6 LAXMI NARAYAN APARTMENTS, 1098/19 SHIVAJI NAGAR, MODEL COLONY, PUNE-411016	ACA 27/05/2003
318	112557	Mr KUMAR JANAK SHAH BLOCK NO. 10 BINDU BLDG, 17 VISHWABHARTI SOC, JUHU LANE OFF V P ROAD, ANDHERI (WEST), MUMBAI-400058	ACA 08/01/2004	333	113277	Ms ARCHANA ANANT SHIRWALKAR ROOM NO 15 PRAFULLA NIWAS, SARVODAYA NAGAR, J M ROAD BHANDUP (W), MUMBAI-400078	ACA 25/09/2003
319	112577	Mr VAIBHAV VISHWANANDA NAYAK C/25 KUMUD NAGAR, S V ROAD, GOREGAON WEST, MUMBAI-400104	ACA 01/03/2004	334	113385	Ms. APURVA SALIL PATIL 102 RAM-CHINTAN B WING, SHIVAJI NAGAR, SHAHAJI RAJE ROAD, VILE PARLE EAST, MUMBAI-400057	ACA 16/09/2003
320	112662	Ms FALGUNI ASHVINBHAI SHAH 9, ADARSH SOCIETY, SWASTIK CHAR HASTA, NAVRAANGPURA, AHMEDABAD-380009	ACA 08/07/2003	335	113393	Mr AMITKUMAR UPENDRABHAI PAREKH E/3 KESHAVBAUG APT., NEAR SHREYAS FOUNDATION, SHREYAS TEKARA, AMBAWADI, AHMEDABAD-380015	ACA 29/12/2003
321	112684	Mr AJAY MOTILAL TAMOLI XPRO INDIA LTD, OFFICERS QUARTERS, POISAR BRIDGE, KANDIVALI WEST, MUMBAI-400067	ACA 19/01/2004	336	113430	Mr. RAHUL SURESHBHAI SHETH 302, VATIKA FLAT, NR. SANJIVANI HOS, NEW SHARDA MANDIR ROAD, PALDI, AHMEDABAD-380007	ACA 01/04/2003
322	112878	Mr RAJIV SURAJ SHAH A/16 SAMIR APTS 169 S V ROAD ANDHERI (W), OPP BANK OF INDIA, MUMBAI-400058	ACA 30/12/2003	337	113472	Ms. SEJAL NATVARLAL ASHAR 137/139 BHANSALI MANSION, 3RD FLOOR, GIRGAUM RD, OPP MAJESTIC CINEMA, MUMBAI-400004	ACA 09/01/2004
323	401397	Mr. JAIN ASHISH THE STOCK EXCHANGE MUMBAI - BSE 25TH FLOOR, SECRETARIAL DEPT., P. J. TOWERS, FORT, MUMBAI-400001	ACA 01/04/2003	338	113613	Mr. SHEETAL KUMAR AGARWAL B-1 RAM KUTIR, BANGUR NAGAR, GOREGAON (WEST), OFF LINK ROAD, MUMBAI-400090	ACA 25/03/2004
324	112885	Mr. SIDDHARTH SATISHKUMAR MEHTA 1 JAIN COLONY NAGAR SHETH VANDA, RELIEF ROAD, AHMEDABAD-380001	ACA 31/03/2004	339	113642	Mr. RAVI LALITKUMAR DESAI 14 NEW QUEEN ROAD, PAREKH HOUSE 1ST FLOOR, BACK SIDE, MUMBAI-400004	ACA 01/04/2003
325	112962	Mr KALPESH GUNVANTRAI MEHTA 2ND FLR MALTI NIWAS, 3RD NORTH SOUTH ROAD, 21 NAVYUG SOC JVPD SCHEME, VILE PARLE (W), MUMBAI-400058	ACA 05/01/2004	340	113656	Mr. HIRENKUMAR ASHVINBHAI PANDYA 11 VATSAL FLATS 2ND FLOOR, NR LAD SOCIETY, NEHRUPARK LANE, VASTRAPUR, AHMEDABAD-0	ACA 01/04/2003
326	112996	Mr. ASHWINKUMAR DAMODAR KUCKIAN A-46, SONAL APARTMENTS, I.C. COLONY, BORIVALI-W, MUMBAI-400103	ACA 23/01/2004	341	113683	Ms. RAKHEE KAUTIK TALELE CORPORATE AUDIT SERVICES, LARSEN AND TOUBRO LIMITED, GATE NO 5 POWAI WORKS, SAKI VIHAR ROAD, MUMBAI-400072	ACA 03/02/2004
327	113014	Mr. NAVEEN SATYANARAYAN MALPANI 1/24 PARIJAT, HINDU FRIENDS SOCIETY ROAD, JOGESHWARI (E), MUMBAI-400060	ACA 27/11/2003	342	113730	Mr. EUGENE VISHWAS WARADKAR 601 SHEKHAR NAGAR A COOP SOC, J S ROAD DAHISAR (W), MUMBAI-400068	ACA 02/01/2004
328	113043	Mr VIKAS JITENDRA GANDHI PRALHAD SHANTINAGAR CHS FLAT NO. 202, SECTOR 4 BLDG NO. C-8 [EAST], MIRA ROAD-401107	ACA 22/03/2004	343	113740	Mr. HARSHAD SHRIPAD KHURJEKAR PLOT NO.4, MANTRI KISHORE PARK, BHOSALE NAGAR, PUNE-411007	ACA 01/04/2003
329	113062	Mr SANJEEV DATTARAM PANCHAL E13/4 TRIVENI CHS LTD, SECTOR 15, AIROLI, NAVI MUMBAI-400708	ACA 17/03/2004	344	113819	Ms PARVEEN AMINULLAH SHAH SYED 13/3 SHAILESH NAGAR, MUMBAI-400612	ACA 31/03/2003
330	113183	Mr SANDEEP SHREEPRAKASH SOMANI C 101 OM SURYOLAYA CHS LTD, RAWALPADA, DAHISAR EAST, MUMBAI-400068	ACA 31/03/2003	345	113823	Mr. RITESH BHARAT DESAI B4/6 JAI PUNIT NAGAR - I, S.V. ROAD, NR POISAR DEPOT, BORIVLI (W), MUMBAI-400092	ACA 01/04/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
346	113924	Mr. GAURAV VINOD GUPTA FLAT NO.7, SILVER DALE APTS, MAHATMA NAGAR, NASHIK-422007	ACA 01/04/2003	352	114536	Ms. LAXMI CHANDRASEKHARAN IYER FLAT NO.9 IIND FLOOR, KARUNALAYA, TEL: GALLI, ANDHERI (E), MUMBAI-400069	ACA 01/04/2003
347	113934	Mr KIRANKUMAR RAMESHCHANDRA SHAH A/6 MANORATH DATTAPADA X ROAD NO. 2, BORIVLI (E), MUMBAI-400066	ACA 11/11/2003	363	114575	Mr SACHIN ANANDRAO TOTADE 715 NEW SUBHEDAR LAY-OUT, NAGPUR-440024	ACA 18/02/2004
348	113971	Ms NAINA DURLABH PITRODA P O BOX NO 3020, DAR-ES-SALAAM, NARAYAN NAGAR-12 TANZANIA-0	ACA 28/08/2003	364	114632	Mr. RAJIV KISHORBHAI SHAH A 21 YAMUNA CHHAY CO OP HSG SOC LTD., JOSHI WADI GUPTA ROAD, DOM BIVALI W, DOMBIVALI-421202	ACA 29/12/2003
349	113972	Mr PREM RAJ LADCHA 5/5 SAHYOG APARTMENT, KESHAVNAGAR, SUBHASHBRIDGE, AHMEDABAD-380027	ACA 18/09/2003	365	114699	Mr AMIT PRAKASH RAHANE A 403 - R N A HEIGHTS, OPP FANTASY LAND, ANDHERI-EAST, MUMBAI-400093	ACA 19/01/2004
350	114011	Mr PARAG GIRISHCHANDRA ADHIYA C/O MR GIRISHCHANDRA H ADHIYA, SOMNATH APTS, 2ST FLR NR LOHANA WADI, SATTA BAZAR, VERAVAL-362265	ACA 01/04/2003	366	114771	Mr ANKUR ASHOK SHAH 2/4, MALAD C H SCTY, PODDAR ROAD, MALAD(E), MUMBAI-400097	ACA 23/02/2004
351	114049	Mrs. GAYATRI SACHIN SONAVANE 25/73 SUMAN APTS, K C ROAD, RECLAMATION, BANDRA WEST, MUMBAI-400050	ACA 25/04/2003	367	114781	Mr RAKESH KUMAR TULSYAN R NO.38/A FIRST FLOOR, 342 KALBA DEVI ROAD, 150 DR. VIGAS STREET, MUMBAI-400002	ACA 07/11/2003
352	114120	Mr. CHETAN ASHOK SUNITA BAFNA C/O SEVA AUTOMOTIVE PVT LTD., X 46 MIDC NEAR GARWARE, AMBAD, NASHIK-422010	ACA 21/08/2003	368	114857	Mr MUKESH RAJMAL KOTHARI A/17 GIRI APTS OPP GOENKA HALL J B NAGAR, ANDHERI (E), MUMBAI-400059	ACA 24/03/2004
353	114134	Mr. VALABH RAM BHATIA 401 DAFFODILS, HOLLY CROSS RD, I.C. COLONY, BORIVLI (W), MUMBAI-400103	ACA 28/08/2003	369	115035	Mr. ASHISH NANDKISHORE RATHI 108/110 RAMNATH SADAN 1ST FLOOR, CAVEL STREET, MUMBAI-400002	ACA 22/01/2004
354	114153	Mr ABDUL HAMID ROOM NO. 5 SAGIRA APT, SHANTI NAGAR, WAGLE ESTATE ROAD NO. 27, THANE-400601	ACA 16/10/2003	370	115042	Mr. ASHISH MORESHWAR MARATHE SWAPN SIRCAIM - TIVIM, TIVIM GOA-403502	ACA 01/11/2003
355	114291	Ms. CHAITRALI DHANANJAY BANDEKAR B WING/304 YASHPRABHA CHS KASTUR PARK, SHIMPOLI ROAD BORIVALI (W), MUMBAI-400092	ACA 29/01/2004	371	115089	Mr. VARUNKUMAR PRAKASHCHANDRA KOTHARI A/104, SHEETAL NAGAR NO.4, AGASHI ROAD, VIRAR-WEST, VIRAR-401303	ACA 23/03/2004
356	114412	Ms PALLAVI PRALHAD SANGAONKAR "TATRASTU", 787/3, FL.NO.36, RAMANAND NAGAR KOLHAPUR-416007	ACA 18/07/2003	372	115101	Ms. CHAITRALI ANIL GOWAIKAR 34/10 BILWADAL, ERANDWANE, PRABHAT ROAD LANE - B, PUNE-411004	ACA 19/01/2004
357	114420	Mr SUSHIL PRASHANT KULKARNI 133 "D" WARD, DATTA MAHARAJ LANE, KOLHAPUR-416002	ACA 01/09/2003	373	115452	Mr. VIRAL YOGESH GANDHI 139/3779 USHA KIRAN, V.B. LANE EXT, PANT NAGAR, GHATKOPAR (E) MUMBAI-400075	ACA 20/02/2004
358	114464	Mr SALIL SUDHAKAR NAIK YOGESH, FLAT NO.203, PANDURANG WADI, ROAD NO. 3 GOREGAON - E MUMBAI-400063	ACA 24/02/2004	374	115491	Mr. JAYADEV ARAVINDAKSHAN SARASWATHY NAIR BUNGLOW NO. 12 VAISHALI SOC RAJAJIPATH, 4TH CROSS ROAD, DIST THANE, DOMBIVALI (E), DOMBIVALI-421201	ACA 24/02/2004
359	114473	Mr DEBADUTTA ACHARYA A/13 KVS, V S MARG, DADAAR WEST, MUMBAI-400028	ACA 08/01/2004	375	115607	Mr. MUKESHKUMAR MANOHARMAL KOCHAR M/S UMMEDMAL PREMRAJ, 134/40 CAVEL STREET, MUMBAI-400002	ACA 01/12/2003
360	114482	Mr. AARON ADRIAN MENEZES A-1-9 KRIPA NAGAR, S.V. ROAD, IRLA, VILE PARLE (W), MUMBAI-400056	ACA 22/03/2004	376	115610	Mr. SHUBHANAN BRIJENDRAKUMAR GIRI 404-A/5, GURUKRUPA, CROSS LANE 2 LOKHANDWALA COMPLEX, ANDHERI (W), MUMBAI-400053	ACA 17/11/2003
361	114522	Mr ASHISH JASWANTLAL SHAH 8 SAMIR APTS KASTUR PARK SHIMPOLI ROAD, BORIVALI (W), MUMBAI-400092	ACA 16/03/2004	377	115745	Mr. NAVALKISHOR DWARKAPRASAD LADDHA 701/A RASHMI PALACE, BEHIND SHANTI ASHRAM, "EVKI NAGAR, BORIVALI WEST, MUMBAI-400103	ACA 15/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Cancel Dt.
378	115748	Mr FARIDAHMED ABDULRAZAK NAGDAWALA 132 MORESHWAR PATANKAR MARG, FLAT NO 108 SHAIKH HANIF NOOR MOHD BLDG, 1ST FLOOR PIPE ROAD, KURLA (W), MUMBAI-400070	ACA 12/01/2004	387	116449	Ms. MANASI SADANAND SAPRE B/16, RASHMI BUILDING, VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI-400058	ACA 10/02/2004
379	115789	Mr. MANOJ SAINARAM SOLANKI PUSHKRAJ, PLOT NO 175, INDRAPRASTHA HSG SCTY, NEAR AKASHWANI, MADAPSAR, PUNE-411028	ACA 09/03/2004	388	116773	Mr. PIYUSH MAHESH LOYA C/O MR. SUDHIR BAHETI, 54 UTKARSH ANURAG, AGRASEN ROAD, GIRIPETH, NAGPUR-440010	ACA 18/03/2004
380	115794	Mr NILESH JASVANTBHAI THAKKAR 8 KAMDHENU SOCIETY, NR. P T COLLEGE, PALDI, AHMEDABAD-380007	ACA 02/01/2004	389	203016	Mr. GANAPATHI KAMATH M SHOP NO 22 K T NAGAR, PHASE-I NAVGHAR, VASAI ROAD WEST, DIST THANE VASAI-401202	FCA 20/05/2003
381	115848	Mr. PUNIT BHARAT AJANI 42/A-7 ZAVERI BLDG., OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI-400088	ACA 29/12/2003	390	205251	Mr. JUGAL KISHOR SAHU BLDG NO B25 FLAT NO 801, ABHISHEK APT, SHANTI PARK, MIRA ROAD (E) MIRA ROAD-401107	ACA 12/12/2002
382	115897	Mr. SAUMIL ARUN GABA A-501 SURAJ DARSHAN APTS., SHANTI ASHRAM, BORIVLI (W), MUMBAI-400103	ACA 24/03/2004	391	206791	Mr. PAUSKAR VIVEKANAND VENKATARAMAN H NO.552 DONGRIM, NEVELIM, MARGAO, MARGAO G.JA-403707	ACA 27/08/2003
383	116112	Mr. SHYAMKUMAR MADANLAL KAMALA AGRAWAL B 107 BHUMI BUILDING, OM NAGAR ANDHERI EAST, MUMBAI-0	ACA 05/12/2003	392	208938	Mrs. LATHA Y PRABHU FLAT NO 109/110 BLDG NO.5, NEW MHADA COLONY, PRATIKSHANAGAR, SION EAST, MUMBAI-400022	ACA 31/12/2003
384	116114	Mr. SUMEET PARSHOTTAM NEETA HINDUJA LENYADRI CO-OP SOC., E/503, PLOT NO 8 & 9, SECTOR 19A, NERUL, NAVI MUMBAI-400708	ACA 18/11/2003	393	400730	Mr. ATAL VINOD KUMAR E-302 SHANKESHWAR NAGAR SOCIETY, ASHOK VAN, DAHISAR EAST, MUMBAI-400068	ACA 26/09/2003
385	116155	Mr. AMIT KISHORE RATHOD A/2 GOPAL BHUVAN, S V ROAD, NEAR DENA BANK, KANDIVLI WEST, MUMBAI-400087	ACA 01/01/2004	394	400788	Mr. KABRA SATISH KUMAR PIONEER EMPROIDERIES LTD., HAKOBA COMPOUND, W E HIGH WAY, BORIVALI (E), MUMBAI-400066	ACA 22/02/2003
396	116252	Ms. PRAJAKTA VASUDEO ALKA GADRE 1, JAISHEERAM, RAMNAGAR, SHIVMANDIR ROAD, RAMNAGAR, DOMBIVALI-E, DOMBIVALI-421201	ACA 22/02/2004				

*Ashok Haldia*  
(DR. ASHOK HALDIA)  
Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005